



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 21—अक्टूबर 27, 2006 (आश्विन 29, 1928)  
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21—OCTOBER 27, 2006 (ASVINA 29, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 069, दिनांक 4 सितम्बर 2006

सं. ए. 19017/04/2006-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का.ज्ञा. सं. 05/08/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'ग' के नियमित आशुलिपिक श्री बी.एस. जौली को संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 01.09.2006 से 31.12.2006 अपराह्न तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (1) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' एवं

'ख' (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

- (II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 19017/5/2006-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का.ज्ञा. सं. 05/08/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'ग' के नियमित आशुलिपिक श्री पी.के. खेड़ा को संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 01.09.2006 से 31.12.2006 अपराह्न तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) नियुक्त करते हैं

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (I) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।
- (II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 19017/6/2006-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का.ज्ञा. सं. 05/08/2006-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'ग' के नियमित आशुलिपिक श्रीमती मंजू अरोड़ा को संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 01.09.2006 से 31.12.2006 अपराह्न तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) नियुक्त करते हैं

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (I) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।
- (II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

#### केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

सं. डीपी/पर्स.1/2006/215/3/32/2001--श्री बी.एन. झा, पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.09.2006 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया।

अनुराग  
पुलिस अधीक्षक (पर्स.)

#### गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 26 सितम्बर 2006

सं. ओ-दो-3698/06-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर विशाल मल्होत्रा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 6.9.2006 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 156 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.3606/03-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. (मिसेस) रितु, चिकित्सा अधिकारी (इरला-5736), ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, जालंधर को संबंधित ग्रुप केन्द्र की नफरी से दिनांक 8.4.2006 (अपराह्न) से निकाला जाता है। तदनुसार, इस बल की तफरी से उनका नाम दिनांक 8.4.2006 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.3523/95-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. (मिसेस) आभा गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (इरला-4236), ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, पिंजौर को संबंधित ग्रुप केन्द्र की नफरी से दिनांक 12.5.2006 (अपराह्न) से निकाला जाता है। तदनुसार, इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 12.5.2006 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.3684/06-सी.आर.सी. (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. रिजवान गानी, चिकित्सा अधिकारी (इरला-6723), 76 बटालियन, के.रि.पु. बल, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) को संबंधित बटालियन की नफरी से दिनांक 9.8.2006 (अपराह्न) से निकाला जाता है। तदनुसार, इस बल की तफरी से उनका नाम दिनांक 9.8.2006 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. ओ-दो-3700/06-सीआरसी(एमओ)--राष्ट्रपति जी, डाक्टर अबू लायस मोस्ताक अहमद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 29.08.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 10 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ-दो-3701/06-सीआरसी (एमओ)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर जीतू कलिता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 18.09.2006 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 171 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह  
उपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-03, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. ए-12012/1/स.नि./2006-प्रशा. II--इस निदेशालय के सर्व श्री नरेश कुमार तथा जे. के. सूद, अतिरिक्त सहायक निदेशक को सहायक निदेशक के पद पर 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में 4 सितम्बर, 2006 से अगले आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

कमलेश डेका  
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 सितम्बर 2006

सं. ई-16015/प्रतिनियुक्ति/एनएससीएस/05/कार्मिक-2/2602--परिवर्तन निदेशालय में (Directorate of Enforcement) में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री शरद चौधरी ने दिनांक 19.07.2006 (अपराह्न) से उप कमांडेंट, के.ओ.सुब उत्तरी सैक्टर मुख्यालय, नई दिल्ली का पदभार छोड़ दिया है तथा दिनांक 20.07.2006 (पूर्वाह्न) से परिवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

ह. अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 29 सितम्बर 2006

प्रशासन का.आ. सं. 39--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री वेद प्रकाश जैन, व.ले.प.अ. दिनांक 31.10.2006 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त होंगे।

उनकी जन्मतिथि 21.10.1946 और नियुक्ति की तिथि 12.8.1968 है।

ह. अपठनीय  
व. उप. महालेखाकार (प्रशा.)

दिनांक 06 अक्टूबर 2006

प्रशासन का.आ. सं. 43--निवर्तन की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप इस कार्यालय के श्री अभिमन्यु वर्मा, व.ले.प.अ. दिनांक 30.11.2006 अपराह्न को भारत सरकार की सेवा से सेवा निवृत्त होंगे।

उनकी जन्मतिथि 9.11.1946 और नियुक्ति की तिथि 1.8.1969 है।

ह. अपठनीय  
व. उप. महालेखाकार (प्रशा.)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

प्रशा. I/का. आ. सं. 166--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के श्री विनोद शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 29.9.2006 (अपराह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क. प्रसाद  
निदेशक (प्रशासन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 06 अक्टूबर 2006

सं. 91-जी.ई. I/13.2006--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सर्व श्री

1. सी. एस. नायर अधिवाधिकी दिनांक 30.09.2006 (अपराह्न)
2. भुवनेश गद्गव त्याग-पत्र दिनांक 26.08.2006 (अपराह्न)

दीपक नारायण  
सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

महालेखाकार का कार्यालय (ले. व. ह.), कर्नाटक

बेंगलूर, दिनांक 5 अक्टूबर 2006

सं. ई एस I/ए 8/ओ/2006-07/166--महालेखाकार (ले. व. ह.), ने श्री चन्द्रशेखरय्या के. एन., सहायक लेखा अधिकारी (युनिक कोड सं. 209 0065) को पूर्णतया अस्थायी रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 05/10/2006 के पूर्वार्द्ध से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

2. मूल नियमावली एफ आर 22 (I) (ए) (i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह. अपठनीय  
व. उप. महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 4 अक्टूबर 2006

सं. का. स्था(रोकड)/पेन/10-2/2006-2007--प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित पदाधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए।

| क्र. सं. | नाम व पदनाम                                    | सेवा निवृत्ति की तारीख | अभ्युक्तियां |
|----------|--|------------------------|--------------|
| 1.       | श्री ई. एम. मोहम्मद वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी | 31.08.2006             | अधिवाषिकी    |
| 2.       | श्री के. एम. माणी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी   | 31.08.2006             | अधिवाषिकी    |

दिवाकरन पिल्लै  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. ए-19011/578/2006-स्था.ए.--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 12016/2/जेटीएस/(पी)/2005-आईएसएस दिनांक 11.8.2006 के अनुपालन में श्रीमती एस. एस. भैसारे, सांख्यिकी अधिकारी ग्रेड-I को भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खनिज अर्थशास्त्री (सां) कनिष्ठ समय मान (आईएसएस) के पद पर दिनांक 14.8.2006 (अपराह्न) से पदोन्नति दी जाती है।

एस. दासगुप्ता  
प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक

कृषि मंत्रालय  
कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2006

सं. 38017/2/2006-एम.-I--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, देहरादून से दिनांक 31.7.2006 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. के. गाडी  
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 27 सितम्बर 2006

सं. पीडी/6(1)/2006-आर-III/2006/9191--नियंत्रक, भाभा परमाणु, अनुसंधान केन्द्र, श्री के. वेंकट सुबमणियन्, सहायक, भापअ

केन्द्र, मुंबई को उनके जेआईपीएमईआर, पोण्डिचेरी में प्रतिनियुक्ति के दौरान दिनांक 14 अक्टूबर 2005 (पूर्वाह्न) से रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में एफआर 22 (II) के ठीक निचला नियम के अन्तर्गत सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। प्रत्यावर्तन के बाद उन्होंने दिनांक 04 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) को आगामी आदेशों तक भापअ केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर कार्यभार-ग्रहण कर लिया है।

डी. दशरथन  
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग  
भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-कोट/2006/979--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री एन. एस. पुगडेंदी, सहायक लेखाकार, भापअकें, मुंबई को दिनांक 28 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन  
प्रशासन अधिकारी

सं. भापाबो/भर्ती/1(36)-नि.स./2006/981--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री थंकचन कंजेक्कल, आशुलिपिक ग्रेड -I, भारी पानी बोर्ड, (केन्द्रीय कार्यालय) को उसी कार्यालय में दिनांक 19 सितम्बर, 2006 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200+10,500/- के वेतनमान में निजी सचिव (एन.एस.) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन  
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 4 अक्टूबर 2006

सं. भापाबो/भर्ती/5(2)-कें.का./2006/984--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, (केन्द्रीय कार्यालय) श्री गंगाराम राजाराम राऊल, वरिष्ठ लिपिक भापाबो (केन्द्रीय कार्यालय) को दिनांक 17 अगस्त, 2006 (पूर्वाह्न) से दिनांक 22 सितम्बर, 2006 (अपराह्न) तक प्रभावी रूप से रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन  
प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 7 अक्टूबर 2006

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2006/319--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के ग्रेड 'जी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियरों को

वैज्ञानिक अधिकारी 'एच' के ग्रेड में 01.08.2006 से (रु. 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में) इसी इकाई में स्थानापन्न हैसियत में, भावी आदेश होने तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

| क्र. सं.                               | नाम                 |
|--|---------------------|
|  | सर्वश्री            |
| 1.                                     | एन. पंचापकेशन       |
| 2.                                     | बी. एस. कृष्णमूर्ति |
| 3.                                     | वी. एस. शास्त्री    |
| ए. एस. लक्ष्मणराव<br>प्रशासनिक अधिकारी |                     |

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एक्यूरेट चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 फरवरी 2006

सं. 560 (3) 55/43852/11026--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एक्यूरेट चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

विष्णु पी. काटकर

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिमासा स्टॉक होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/51796/15073--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिमासा स्टॉक होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ई एस एस टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/58548/15076--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ई एस एस टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लास्टिंग वैल्यूज मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/58610/15079--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स लास्टिंग वैल्यूज मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिव साई ट्रावलस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/58358/15094--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शिव साई ट्रावलस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी जी टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/58228/15100--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डी जी टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सविता मेटल्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/58691/15103--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सविता मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच सी चान्दना  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/58491/15168--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एच सी चान्दना प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिलवान बायोटेक  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/51751/15171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिलवान बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए एम फिल्मस  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/51420/15174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए एम फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साहनी कलेर हॉस्पिटल्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 फरवरी 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/58596/15177--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साहनी कलेर हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विवा स्टील  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (3) एस.ई.एस./2005/55/48824/16002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स विवा स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मासा डोमेस्टिक एप्लाइंसिस  
इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/56239/19267--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा



आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।  
उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राईम सीड्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/30648/19513--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्राईम सीड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम  
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।  
उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पॉयनीयर बिल्डर्स एण्ड  
इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/65146/19519--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पॉयनीयर बिल्डर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स  
प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त  
कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम  
काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुम्ब सेक्यूरिटीज  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/65723/19546--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कुम्ब सेक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम  
आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।  
उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संतोष पोल्यूशन कंट्रोल  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/30383/19552--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स संतोष पोल्यूशन कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड  
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो  
गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गणपत ब्रेक एण्ड  
कलच प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (3) एस.ई.एस./2005/55/25905/19555--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में  
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त  
मैसर्स गणपत ब्रेक एण्ड कलच प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल  
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त  
कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केटीएस सिन्थैटिक्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/19299/19558--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स केटीएस सिन्थैटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का  
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई  
है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेशर फायनेंशियल  
सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/74727/19588--कम्पनी  
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा



यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन ए वी अभियान पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टेटजिक  
ऑप्सन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/67691/19612--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टेटजिक ऑप्सन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिंडीकेट कंस्ट्रक्शन  
कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/6734/19613--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिंडीकेट कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नवग्रो होल्डिंग्स एण्ड  
लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (5) एस.ई.एस./2003/55/67178/19616--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नवग्रो होल्डिंग्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी

विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कैपिटल सिप्रिंग्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (3) एस.ई.एस./2005/55/35585/19619--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कैपिटल सिप्रिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्तोगी फिनसेक  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (3) एस.ई.एस./2005/55/745131/19624--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स स्तोगी फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवा फैनब्रिक्स  
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560 (3) एस.ई.एस./2005/55/31241/19629--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शिवा फैनब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस. एल. एम. सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/89221/19987--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एस. एल. एम. सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स योगा विशिष्ट फिल्मस प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/56988/20002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स योगा विशिष्ट फिल्मस प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन. ए. इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/42968/19992--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एन. ए. इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवा ट्रेडर्स एण्ड होर्लिङ्गस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/27986/20012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शिवा ट्रेडर्स एण्ड होर्लिङ्गस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. सी. नेटवर्क एण्ड कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/58138/19997--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जे. सी. नेटवर्क एण्ड कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रेट कान्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।\*

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/27047/20067--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ग्रेट कान्ट्रेक्टर्स एण्ड सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्वास्तिक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/34990/20238--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्वास्तिक एडवाइज़र्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एमवीएम ऑटोनेम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/1743/20241--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एमवीएम ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्जीज़र सीकर्स ट्रेवलर्स टूरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।**

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/17189/20244--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्लीज़र सीकर्स ट्रेवलर्स टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एचके इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/34222/20247--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560(5)एस.ई.एस./2003/55/66620/20324--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स योग दर्शन पोर्टफोलियो गार्डवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/21127/20393--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अप्पू चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

मल्टीकॉम एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेरीगोल्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/21651/20399--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेरीगोल्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बैक्यूट एक्वा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/63735/20541--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बैक्यूट एक्वा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू राजधानी रेफ्रिजेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/35385/20410--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यू राजधानी रेफ्रिजेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शिवालिक पेट्रोलियम लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/64882/20546--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स शिवालिक पेट्रोलियम लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मल्टीकॉम एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/18755/20477--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कमल लोचन टाईम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/24331/20566--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स

हितैशी इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेंटल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55.80302/20586--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पेंटल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वर्ल्डवाइड होलीडेज़ लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/88836/20591--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स वल्र्डवाइड होलीडेज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिक्की एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/64042/20596--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रिक्की एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगा पर्ट टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/75575/20781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मेगा पर्ट टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाईनेस्टी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/35795/20831--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डाईनेस्टी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/35318/20834--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डेलको चिट फण्ड एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/13104/19923--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेलको चिट फण्ड एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इण्डिया लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/36176/20955--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इण्डिया लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टार टैक कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/100950/20958--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टार टैक कन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एआईएमएस फाईनेंस एण्ड कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/62680/20964--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एआईएमएस फाईनेंस एण्ड कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लखनऊ कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/44994/20987--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स लखनऊ कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परिचित फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/13710-55/20988--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स परिचित फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आशा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/13983-55/20991--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आशा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भाई गेहला सिंह चिट एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/13432/20994--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भाई गेहला सिंह चिट एण्ड फाइनेन्स

प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिनेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/13553/20997--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स दिनेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुजाता इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/28090/21006--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुजाता इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

\* विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टरनिंग प्वाइंट एडीएस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/28619/21009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स टरनिंग प्वाइंट एडीएस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मिडईस्ट आडियो विजुयल स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/46748/21170--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मिडईस्ट आडियो विजुयल स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनजरलैट्रनर पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/112488/21208--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनजरलैट्रनर पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राओ एसोसिएट्स मैनेजमेंट सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/100945/21199--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राओ एसोसिएट्स मैनेजमेंट सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वरटैक्स फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/85022/21211--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वरटैक्स फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फेलकोन एक्सप्रेस सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/111809/21205--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फेलकोन एक्सप्रेस सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विस्टर कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/85413/21214--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विस्टर कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोयल लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/28354/21337--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोयल लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बैस्ट इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/104441/21352--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बैस्ट इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नमस्कार चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/28134/21343--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नमस्कार चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वनसॉस सोलियूशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/104317/21355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वनसॉस सोलियूशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाओ वेदा रैस्पी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/104432/21346--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बाओ वेदा रैस्पी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रीम्फ इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/104443/21358--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रीम्फ इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिग ड्रीम्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/104444/21361--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बिग ड्रीम्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तृशा इन्फोकोस्म प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/105276/21370--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स तृशा इन्फोकोस्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजसन्स वार्नीश एण्ड कलर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/73865/21365--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजसन्स वार्नीश एण्ड कलर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रीगल फायर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/88382/21373--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स रीगल फायर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोनिया मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/73310/21367--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोनिया मैटल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रंजीत साबीकी आरचीटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/73604/21376--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रंजीत साबीकी आरचीटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा





हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजशिखा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/33464/21482--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजशिखा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आटो स्कूटर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/33287/21491--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आटो स्कूटर (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी आर जे चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/05/34202/21498--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वी आर जे चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी

विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरवी टिशूस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/51332/21501--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स अरवी टिशूस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रीपसन्स होल्डिंग्स एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/50676/21506--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स ट्रीपसन्स होल्डिंग्स एण्ड फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैन्मो फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/72962/21511--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सैन्मो फाईनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिलायन्स सिलिका एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/90296/21516--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स रिलायन्स सिलिका एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आई-वॉल्ट सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/113620/21669--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स आई-वॉल्ट सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पैसर सलौरा इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/81289/21521--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पैसर सलौरा इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रीगल फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/86143/21679--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स रीगल फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नेसेट एग्जिमपुट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/50625/21664--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स नेसेट एग्जिमपुट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वर्टीकल स्पेयर्स कॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/108098/21679--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स वर्टीकल स्पेयर्स कॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नीरज पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/29858/21684--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स नीरज पैकेजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोइज़ ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/68284/21699--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स पोइज़ ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्पस फर्नीशिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/121764/21689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स अल्पस फर्नीशिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम बी एस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/57149/21708--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एम बी एस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तनवीन एन्टरप्राइसेज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/85432/21694--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स तनवीन एन्टरप्राइसेज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेकुरिट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/096203/21709--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सेकुरिट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेहरा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/23189/21819--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स मेहरा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजीव सेल्स एण्ड कन्सलटैंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/38956/21824--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स राजीव सेल्स एण्ड कन्सलटैंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स परफेक्ट सल्यूशन्स टरलिट् प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/120071/21829--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स परफेक्ट सल्यूशन्स टरलिट् प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वैशाली लैडर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/109301/21834--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स वैशाली लैडर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिलायन्स डिटर्जेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/34525/21839--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स रिलायन्स डिटर्जेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन हाऊस एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेवल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/10918/21844--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सन हाऊस एक्सपोर्ट्स एण्ड ट्रेवल प्राईवेट लिमिटेड का नाम

कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस सी वी कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/83101/21849--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एस सी वी कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए ओ एस एल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/69710/21859--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स ए ओ एस एल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रांसटैक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/96701/21864--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ट्रांसटैक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी

विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बेले फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/66372/21867--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बेले फाईनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लाचिक ऐड्स एण्ड फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/55137/21906--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स लाचिक ऐड्स एण्ड फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन्त स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/41526/21910--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सन्त स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वी.एस. कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/105036/21913--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स वी.एस. कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एपेक्स-स्मेल्टिंग एण्ड रिफाईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/19737/21953--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एपेक्स-स्मेल्टिंग एण्ड रिफाईनिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बंका वियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/56721/21947--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बंका वियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. रमन मेटकैम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/73638/21958--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एम. रमन मेटकैम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐनट्रस्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/56422/21950--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐनट्रस्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फैमिली पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/59835/21963--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स फैमिली पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इकोन कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/63857/22044--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इकोन कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मखीजा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/05/31203/22047--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स मखीजा चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स असम पावर पार्टनरस लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/62076/22067--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स असम पावर पार्टनरस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऐटरी चिटस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/62205/22106--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ऐटरी चिटस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रीसीजन शू कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/62487/22109--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्रीसीजन शू कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विश्वाजैनया एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/62872/22112--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विश्वाजैनया एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओ बी फ़ैबरिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/62373/22130--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओ बी फ़ैबरिक्स प्राईवेट

लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्राम्पट कार्गो कनेक्शनस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/68972/22245--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स प्राम्पट कार्गो कनेक्शनस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सशा फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/59258/22248--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स सशा फाईनैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बाबा कार्गो ट्रेवेलस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/59399/22502--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बाबा कार्गो ट्रेवेलस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी

विधटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम के जी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/90589/22558--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स एम के जी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगा टेप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 मार्च 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/109450/22739--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स मेगा टेप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेक्सासेन्ट इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 मई 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/121683/22781--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स वेक्सासेन्ट इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इएम सिक्वोरिटीज लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/62859/22883--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इएम सिक्वोरिटीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बायोज फूडस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 मई 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/59898/22953--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स बायोज फूडस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अर्जुन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/37907/22959--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अर्जुन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शान्ति एजुकेशनल फाऊन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/76022/23061--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शान्ति एजुकेशनल फाऊन्डेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निर्वाण एक्वोर्ट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 25 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/17082/23089--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स निर्वाण एक्वोर्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्वीन चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/11402/23712--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स क्वीन चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चेतना सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/05/33123/23721--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स चेतना सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिमेटीव ऐक्स प्रेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/78062/23726--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रिमेटीव ऐक्स प्रेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नौयडा एपालाइनसिज एण्ड फेवरीकेसन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/37241/23895--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नौयडा एपालाइनसिज एण्ड फेवरीकेसन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सहज प्रोप्रटीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/93719/23898--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सहज प्रोप्रटीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कशिश क्रिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/99700/23901--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स कशिश क्रिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैस्को कौस्मैटिक्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/25132/23904--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैस्को कौस्मैटिक्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुड मोरनिंग मार्किटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/114922/23910--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुड मोरनिंग मार्किटिंग लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डी. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

डॉ. आर. चतुर्वेदी  
उप-कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी एन पी इन्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 31 मई 2006

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55/57489/24099--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डी एन पी इन्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

डॉ. आर. चतुर्वेदी

उप कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मनचंदा इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जून 2006

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/78215/25187--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त पर मैसर्स मनचंदा इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित ना किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./केएचएम/यु.एस./560-2005/2175--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण एतद्वारा कम्पनियों का नाम इस नोटिस की प्रकाशन की तारीख से रजिस्टर से रद्द किया जाता है और यह कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

एस.ई.एस.-2005

सूची संख्या-VI

| क्रम सं. | कं. सं.  | कम्पनी का नाम                                |
|----------|----------|--|
| 1        | 2        | 3  |
| 1.       | 04-31951 | मैसर्स आशापुर सेरेमीकस प्रा. लि.             |
| 2.       | 04-32885 | मैसर्स संस्कृत इम्पेक्स कन्सलटेन्स प्रा. लि. |
| 3.       | 04-31458 | मैसर्स उज्ज्वल पोलीटेक्स प्रा. लि.           |
| 4.       | 04-32875 | मैसर्स मोहता स्टोक ब्रोकर्स प्रा. लि.        |
| 5.       | 04-21681 | मैसर्स श्रीनकोन प्लास्टिक प्रा. लि.          |
| 6.       | 04-32099 | मैसर्स स्टीम नेटवर्किंग सोल्युशन प्रा. लि.   |

| 1   | 2        | 3  |
|-----|----------|--|
| 7.  | 04-31608 | मैसर्स अनोखी एन्टरप्राइसीस प्रा. लि.         |
| 8.  | 04-31271 | मैसर्स पटपार्थ मरचन्डाइस लि.                 |
| 9.  | 04-31058 | मैसर्स ओरीएन्टल प्लास्टो केम. प्रा. लि.      |
| 10. | 04-32574 | मैसर्स आरचेन्ज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि. |
| 11. | 04-32609 | मैसर्स दर्शन कम्प्युटर्स लि.                 |
| 12. | 04-31249 | मैसर्स पटपार्क बिल्डर्स लि.                  |
| 13. | 04-31125 | मैसर्स एरीओ इंजीनीयरिंग प्रा. लि.            |
| 14. | 04-38662 | मैसर्स निशी नेटवर्क प्रा. लि.                |
| 15. | 04-31284 | मैसर्स शैव फिनलीज प्रा. लि.                  |
| 16. | 04-31893 | मैसर्स मोडुले सोफ्टवेयर सिस्टम लि.           |
| 17. | 04-31829 | मैसर्स दिग्गज एग्रो प्रा. लि.                |
| 18. | 04-30317 | मैसर्स नरसिंहजी फिनलीज प्रा. लि.             |

वी. के. खुबचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गोपाल वेल्लिंग केबल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 33245 आर.ओ.सी./एचटीए/560/2005/2181--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स गोपाल वेल्लिंग केबल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खुबचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स दत्ता केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 2970/आर.ओ.सी./एसटीए/560/2005/2184--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स दत्ता केमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खुबचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अलपेश मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 32527/आर.ओ.सी./एचटीए/560/2005/2187--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अलपेश मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खुबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स स्वेता फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 27621/आर.ओ.सी./एचटीए/560/2005/2190--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स स्वेता फिनस्टोक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खुबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अरूण डायस्टफ प्राईवेट लिमिटेड  
के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 3 अक्टूबर 2006

सं. 32526/आर.ओ.सी./एचटीए/560/2005/2190--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अरूण डायस्टफ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खुबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 2006

सं. कं.सं./क.र.ब./तस/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप-धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :--

| क्रम सं. | कं. सं. | कम्पनी का नाम   |
|----------|---------|---|
| 1        | 2       | 3   |
| 1.       | 8263    | मैसर्स महिन्द्रा हाउसिंग एण्ड फायनेन्स प्रा. लि.                  |
| 2.       | 5251    | मैसर्स उमामहेश्वरी गिजिंग एण्ड प्रेसिंग कं. प्रा. लि.             |
| 3.       | 3021    | मैसर्स हैमलोर टूल्स वर्क्स प्रा. लि.                              |
| 4.       | 4724    | मैसर्स स्नेह पब्लिशर्स प्रा. लि.                                  |
| 5.       | 9540    | मैसर्स गोकुल मेकेनाइज्ड ब्रिक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.                |
| 6.       | 10421   | मैसर्स टेक्नो टायर सोल्स प्रा. लि.                                |
| 7.       | 2227    | मैसर्स आटोमेट एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कं. प्रा. लि.                 |
| 8.       | 10447   | मैसर्स आद्री कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.                                |
| 9.       | 7674    | मैसर्स हैदराबाद वूवन स्नेक प्रा. लि.                              |
| 10.      | 8851    | मैसर्स केसर फायनेन्स प्रा. लि.                                    |
| 11.      | 2338    | मैसर्स कोडी पेक प्रा. लि.   |
| 12.      | 4465    | मैसर्स नराना केबल एण्ड बायर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.                  |
| 13.      | 11175   | मैसर्स गोकुल वृन्दावन होटल्स प्रा. लि.                            |
| 14.      | 3854    | मैसर्स चन्द्रावरकर एण्ड ठाकरे (इंडिया) प्रा. लि.                  |
| 15.      | 10856   | मैसर्स रिमार्कबल फायनेंसियल सर्विसेज एण्ड इन्टरप्राइजेस प्रा. लि. |
| 16.      | 4659    | मैसर्स स्वरूप मेटल्स प्रा. लि.                                    |
| 17.      | 11665   | मैसर्स पल्लवी इम्पेक्स प्रा. लि.                                  |
| 18.      | 8005    | मैसर्स एम.एस. प्लास्टीक्स प्रा. लि.                               |
| 19.      | 5551    | मैसर्स मशीन एण्ड टूल्स सिंडिकेट प्रा. लि.                         |
| 20.      | 2033    | मैसर्स जयकुमार इंजीनियरिंग (केरला) प्रा. लि.                      |
| 21.      | 10570   | मैसर्स विवा डिस्टिलरीज प्रा. लि.                                  |
| 22.      | 8374    | मैसर्स रोहिनी प्रोसेसिंग प्रा. लि.                                |
| 23.      | 11205   | मैसर्स अनिल मल्टीनोलॉजीस प्रा. लि.                                |
| 24.      | 7198    | मैसर्स चेनिल डिजाईनिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि.                  |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 25. | 3839  | मैसर्स आयलाईट आप्टीकल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.        |
| 26. | 7177  | मैसर्स कामथ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.                 |
| 27. | 3901  | मैसर्स कामथ थ्रेड्स लि.                            |
| 28. | 6511  | मैसर्स रिगल वीयाग प्रा. लि.                        |
| 29. | 10506 | मैसर्स ओमनी क्रियेटिव रिसोर्सेस प्रा. लि.          |
| 30. | 3936  | मैसर्स अमर डिस्टिलरीज प्रा. लि.                    |
| 31. | 7886  | मैसर्स द मालनाड म्यूचअल डेवलपमेंट प्रा. लि.        |
| 32. | 4619  | मैसर्स कुमार ट्रांसकॉन प्रा. लि.                   |
| 33. | 6630  | मैसर्स शब्बीर इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि. |
| 34. | 9365  | मैसर्स चान्बु प्रेस प्रा. लि.                      |
| 35. | 8512  | मैसर्स पैरामाउण्ट स्लीक्स प्रा. लि.                |
| 36. | 5374  | मैसर्स डी.जी. एप्लायंसेस प्रा. लि.                 |
| 37. | 6100  | मैसर्स आर.जी. इन्टरप्राइजेस प्रा. लि.              |
| 38. | 3040  | मैसर्स टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेज प्रा. लि.           |
| 39. | 7495  | मैसर्स रूपवाहिनी विडियो प्रा. लि.                  |

सी. वी. सजीवन  
सहायक कंपनी पंजीयक  
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में

बेंगलूर-34, दिनांक 2006

सं. 560(5)/एससीएस/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की धारा 560(5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

| क्रम सं. | कम्पनी नं. | कम्पनी का नाम  |
|----------|------------|--|
| 1        | 2          | 3  |
| 1.       | 3657       | मैसर्स ओम स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि.                     |
| 2.       | 10929      | मैसर्स चेम्पियन रबर प्रा. लि.                            |
| 3.       | 8081       | मैसर्स शशि कुमार पेकेजिंग प्रा. लि.                      |
| 4.       | 11689      | मैसर्स महेन्द्र सेरिकल्चर प्रा. लि.                      |
| 5.       | 6574       | मैसर्स पोलिबेटन (इंडिया) प्रा. लि.                       |
| 6.       | 10815      | मैसर्स नुल्की इन्वेस्टमेंट एण्ड हायर परचेज कं. प्रा. लि. |
| 7.       | 9804       | मैसर्स नेट्रान प्लास्ट प्रा. लि.                         |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 8.  | 6301  | मैसर्स श्री चामुण्डेश्वरी हाउसिंग प्रा. लि.              |
| 9.  | 6803  | मैसर्स के ओ कोट इंडस्ट्रीयल फिनिशिंग प्रा. लि.           |
| 10. | 11159 | मैसर्स पंकज माइकोकाम्प टेक्नीक प्रा. लि.                 |
| 11. | 8856  | मैसर्स दिनेश रोड लिंक प्रा. लि.                          |
| 12. | 8801  | मैसर्स सइधर इक्वीपमेंट प्रा. लि.                         |
| 13. | 4371  | मैसर्स मनु पेपर प्रिंट प्रा. लि.                         |
| 14. | 9468  | मैसर्स आदुश बैबू विकास निगम प्रा. लि.                    |
| 15. | 10357 | मैसर्स राजा विनायक ड्रग्स प्रा. लि.                      |
| 16. | 6196  | मैसर्स बेटी पिन्टो एण्ड कं. प्रा. लि.                    |
| 17. | 5689  | मैसर्स मेटल प्रोफाइल प्रा. लि.                           |
| 18. | 5939  | मैसर्स महंत सीमेंट एण्ड मिनरल प्रा. लि.                  |
| 19. | 9633  | मैसर्स मूनलाइट एक्सपोर्ट प्रा. लि.                       |
| 20. | 10713 | मैसर्स सस आइल मिल्स प्रा. लि.                            |
| 21. | 5605  | मैसर्स ल्यूब आइल (इंडिया) प्रा. लि.                      |
| 22. | 2543  | मैसर्स हर्षा टूल्स प्रा. लि.                             |
| 23. | 5537  | मैसर्स महिन्द्रा एस्टेट एण्ड एग्रीकल्चरल फार्म प्रा. लि. |
| 24. | 5513  | मैसर्स गडिया इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.                      |
| 25. | 8535  | मैसर्स नितिन प्रोसेस इक्वीपमेंट प्रा. लि.                |
| 26. | 5269  | मैसर्स राक गिब्रेल्टर इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.             |
| 27. | 5531  | मैसर्स होराइजन मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्रा. लि.        |
| 28. | 2814  | मैसर्स युनाइटेड चेन्स प्रा. लि.                          |
| 29. | 11384 | मैसर्स स्मिथ इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.                    |
| 30. | 11791 | मैसर्स सुरक्षा वायर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.                 |
| 31. | 4502  | मैसर्स एक्का डिल एण्ड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.   |
| 32. | 11896 | मैसर्स पद्मावती बिल्डटैक प्रा. लि.                       |
| 33. | 3275  | मैसर्स मूर्ति इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.           |
| 34. | 6159  | मैसर्स येलनाड सीमेंट प्रा. लि.                           |
| 35. | 8044  | मैसर्स कृतिका नेटवर्क कंसलटेड प्रा. लि.                  |
| 36. | 3216  | मैसर्स मुनिराबाद ड्रग्स कं. प्रा. लि.                    |
| 37. | 10730 | मैसर्स श्री राम माइनिंग कं. प्रा. लि.                    |
| 38. | 11715 | मैसर्स प्रणानामी गारमेक्स प्रा. लि.                      |
| 39. | 9067  | मैसर्स एस.एल.पी. इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.                |
| 40. | 11442 | मैसर्स क्लासिक कंफेक्शनरी प्रा. लि.                      |
| 41. | 8742  | मैसर्स गार्डन सिटी ट्रेवल्स प्रा. लि.                    |

| 1   | 2     | 3   | 1    | 2     | 3  |
|-----|-------|---|------|-------|--|
| 42. | 9308  | मैसर्स आर.जी.के. बिल्डर्स प्रा. लि.   | 75.  | 7755  | मैसर्स मातृ ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.                                       |
| 43. | 8252  | मैसर्स चांदे काफी कं. प्रा. लि.   | 76.  | 10607 | मैसर्स सौम्या कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा. लि.                               |
| 44. | 6807  | मैसर्स सी.ए.ई. सिस्टम एण्ड सॉफ्टवेयर प्रा. लि.                              | 77.  | 10776 | मैसर्स सिसोरेक्स प्रोडक्शन्स प्रा. लि.                                   |
| 45. | 6977  | मैसर्स एडमार्क कम्यूनिकेशन प्रा. लि.  | 78.  | 11908 | मैसर्स माइकटेल टेक्नालाजीस प्रा. लि.                                     |
| 46. | 7243  | मैसर्स श्री ओमी इंडियल आयल्स प्रा. लि.                                      | 79.  | 9441  | मैसर्स लॉगफोर्ड लेदर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.                                |
| 47. | 7511  | मैसर्स सीको इलेक्ट्रीक लि.  | 80.  | 11372 | मैसर्स वाग्देवी चिट फण्ड्स प्रा. लि.                                     |
| 48. | 6505  | मैसर्स अपराइट इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.                                  | 81.  | 9387  | मैसर्स किशा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि.                                |
| 49. | 6675  | मैसर्स अंशी लिजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.                              | 82.  | 5463  | मैसर्स हाटलाईन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.                                      |
| 50. | 8015  | मैसर्स कावेरी क्रैन्स प्रा. लि.   | 83.  | 8372  | मैसर्स एनेस्के टाईल्स (इंडिया) प्रा. लि.                                 |
| 51. | 7952  | मैसर्स टालमिन डाटा प्रोडक्ट्स प्रा. लि.                                     | 84.  | 5955  | मैसर्स पद्मावती सिलेण्डर एण्ड फोजिंग्स प्रा. लि.                         |
| 52. | 8061  | मैसर्स मशीन टर्ज प्रा. लि.  | 85.  | 2826  | मैसर्स एग्री सर्विसेज प्रा. लि.  |
| 53. | 2836  | मैसर्स वुडलाईट प्रा. लि.  | 86.  | 6897  | मैसर्स केप लियो कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा. लि.                             |
| 54. | 9396  | मैसर्स स्वामी फूलोर मिल्स प्रा. लि.   | 87.  | 10477 | मैसर्स जनसेवा प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि.                         |
| 55. | 5922  | मैसर्स अश्विनी मिल्स प्रा. लि.  | 88.  | 2531  | मैसर्स सी.एम.एम. इनसेंस प्रोडक्ट्स प्रा. लि.                             |
| 56. | 8060  | मैसर्स डिस्पोजेबल्स एण्ड रिजेंट प्रा. लि.                                   | 89.  | 6081  | मैसर्स विवेकानंद सीमेंट प्रा. लि.  |
| 57. | 5900  | मैसर्स सली इन्वेषन प्रा. लि.  | 90.  | 9029  | मैसर्स एस.एन.जी फर्मेस प्रोडक्ट्स प्रा. लि.                              |
| 58. | 10549 | मैसर्स इनक्रान एक्सपोर्ट कोसोटियम प्रा. लि.                                 | 91.  | 9549  | मैसर्स श्री विद्या ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट प्रा. लि.                        |
| 59. | 9505  | मैसर्स माइक्रो फूड्स एण्ड ब्रेवरिज प्रा. लि.                                | 92.  | 8652  | मैसर्स श्री स्फूर्ति डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रा. लि.                      |
| 60. | 5931  | मैसर्स मेष्को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.                                      | 93.  | 7868  | मैसर्स कावेरी ग्रेनाइट प्रा. लि.   |
| 61. | 4569  | मैसर्स बनशंकरी प्रेस वर्क्स प्रा. लि.                                       | 94.  | 9377  | मैसर्स कावेरी एपेरल्स प्रा. लि.  |
| 62. | 11990 | मैसर्स शंकर एण्ड शास्त्री बायोटेक प्रा. लि.                                 | 95.  | 9207  | मैसर्स सुपर दीप वैल पम्पस प्रा. लि.                                      |
| 63. | 11914 | मैसर्स वॉटर एयर प्रा. लि.   | 96.  | 8098  | मैसर्स हाइड्रोजीन एण्ड एल्यूमिना केमिकल्स प्रा. लि.                      |
| 64. | 3240  | मैसर्स कर्नाटक फिल्टर्स प्रा. लि.   | 97.  | 11860 | मैसर्स कोस्मोस एजुकेशनल एण्ड प्रा. लि.                                   |
| 65. | 11803 | मैसर्स वेदवती सेरीकल्चर प्रा. लि.   | 98.  | 9553  | मैसर्स ए.एस.पी. प्रोमोटर्स प्रा. लि.                                     |
| 66. | 1474  | मैसर्स मैसूर एडवर्टाईजिंग कं. प्रा. लि.                                     | 99.  | 6292  | मैसर्स पी.वी. कंसलटेंट्स प्रा. लि.                                       |
| 67. | 10219 | मैसर्स राज एण्ड राज प्लास्टिक कं. प्रा. लि.                                 | 100. | 9683  | मैसर्स टुंगा सी फूड्स प्रा. लि.  |
| 68. | 1390  | मैसर्स श्री मुकाम्बिका एग्रीकल्चरल एस्टेट एण्ड फारेस्ट इंडस्ट्रीज प्रा. लि. | 101. | 11917 | मैसर्स जे. सुपर सर्व एक्सप्रेस कुरियर एण्ड मार्केटिंग सर्विसेस प्रा. लि. |
| 69. | 7751  | मैसर्स बी.आर.पी. इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.  | 102. | 11226 | मैसर्स पेनु ग्रेनाइट प्रा. लि.   |
| 70. | 9972  | मैसर्स ओ.बी.एम. मार्केटिंग प्रा. लि.  | 103. | 6001  | मैसर्स टेबार्स्टे प्रोसेसर्स प्रा. लि.                                   |
| 71. | 7479  | मैसर्स कल्याण सॉफ्ट डिक्स प्रा. लि.   | 104. | 7156  | मैसर्स सिरका इंजीनियरिंग प्रा. लि.                                       |
| 72. | 8659  | मैसर्स आसीकोरे कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.  | 105. | 10808 | मैसर्स ब्रह्मगिरि प्लांटेशन प्रा. लि.                                    |
| 73. | 8995  | मैसर्स टनामक टेक्नालाजीस प्रा. लि.  | 106. | 11330 | मैसर्स पोलर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.                                      |
| 74. | 3935  | मैसर्स कल्पना कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.   | 107. | 11328 | मैसर्स हिमालया फूट प्रोसेसिंग प्रा. लि.                                  |

| 1    | 2     | 3   | 1    | 2     | 3   |
|------|-------|---|------|-------|---|
| 108. | 2572  | मैसर्स ईमेजिन इंडिया प्रा. लि.                                | 141. | 5388  | मैसर्स एरोकेम (इंडिया) प्रा. लि.                              |
| 109. | 7222  | मैसर्स मेक्सवेल फूड्स प्रा. लि.                               | 142. | 5118  | मैसर्स कुमार सिरामिक प्रा. लि.                                |
| 110. | 9004  | मैसर्स एम.आर. फूट्स प्रा. लि.                                 | 143. | 8726  | मैसर्स पवि फायनान्स प्रा. लि.                                 |
| 111. | 10229 | मैसर्स कान्क्वेस्ट इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.                   | 144. | 3658  | मैसर्स सरद बायोकेमिकल्स प्रा. लि.                             |
| 112. | 1965  | मैसर्स केम्पी इंजीनियरिंग प्रा. लि.                           | 145. | 8565  | मैसर्स सपला फायनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.             |
| 113. | 10399 | मैसर्स पोवित्र रिसोर्ट प्रा. लि.                              | 146. | 3910  | मैसर्स डेल्टा एक्सट्रक्शन प्रा. लि.                           |
| 114. | 6302  | मैसर्स मॉडल नर्सिंग होम प्रा. लि.                             | 147. | 7675  | मैसर्स चामुण्डी इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.                  |
| 115. | 5776  | मैसर्स अक्षय फोर्ज प्रा. लि.                                  | 148. | 10711 | मैसर्स टोमेगा क्रेड स्टेशन प्रा. लि.                          |
| 116. | 8354  | मैसर्स पेरगान लेदर लि.  | 149. | 10924 | मैसर्स कश्यप इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.                         |
| 117. | 7965  | मैसर्स पंजा केमिकल्स लि.                                      | 150. | 8926  | मैसर्स विश्वनाथ एसोसियेट्स इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि. |
| 118. | 2785  | मैसर्स अमेल्कॉन सिस्टम प्रा. लि.                              | 151. | 5726  | मैसर्स रसेलट्रोनिक्स लि.                                      |
| 119. | 8529  | मैसर्स बैंगलोर मेरिन लि.                                      | 152. | 2880  | मैसर्स विनायका केमिकल्स प्रा. लि.                             |
| 120. | 5311  | मैसर्स प्रतिभा पेपर मिल्स प्रा. लि.                           | 153. | 5462  | मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड क्लब सफारी प्रा. लि.                      |
| 121. | 10063 | मैसर्स कान्टेक्ट मार्केटिंग एण्ड कंसलटेंसी सर्विसेस प्रा. लि. | 154. | 8357  | मैसर्स नागा बिल्डर्स प्रा. लि.                                |
| 122. | 8148  | मैसर्स मिड पेक टायर प्रा. लि.                                 | 155. | 8554  | मैसर्स टेक्नीक ल्यूमेनरीस प्रा. लि.                           |
| 123. | 888   | मैसर्स शेवदेस केमरा वर्क्स लि.                                | 156. | 718   | मैसर्स कॉफी एण्ड स्प्राइस कं. प्रा. लि.                       |
| 124. | 2706  | मैसर्स मल्टीस्पीड हब्स लि.                                    | 157. | 9727  | मैसर्स विशाल ग्रेनाइट प्रा. लि.                               |
| 125. | 11455 | मैसर्स सीता ग्रेनाइट एण्ड ग्रेनाइट्स प्रा. लि.                | 158. | 5276  | मैसर्स के.एम. इंजीनियरिंग प्रा. लि.                           |
| 126. | 3997  | मैसर्स कोजी होम्स प्रा. लि.                                   | 159. | 6536  | मैसर्स ग्लोब स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि.                       |
| 127. | 10239 | मैसर्स सचेवरन मार्केटिंग कंसलटेंसी प्रा. लि.                  | 160. | 9618  | मैसर्स एशनार होटल्स प्रा. लि.                                 |
| 128. | 9495  | मैसर्स डेटालक रिस्क मैनेजमेंट प्रा. लि.                       | 161. | 8378  | मैसर्स सुमेक एक्सेसरीज प्रा. लि.                              |
| 129. | 9997  | मैसर्स कात्यायिनी होटल्स प्रा. लि.                            | 162. | 8446  | मैसर्स आर्चिड इथेनिक न्यूट्रीयेन्ट प्रा. लि.                  |
| 130. | 9552  | मैसर्स कोयेन्को वेजीटेबल्स आयल रिफायनरी प्रा. लि.             | 163. | 6225  | मैसर्स माईक्स प्रा. लि.                                       |
| 131. | 11402 | मैसर्स अर्पिता वाच केस प्रा. लि.                              | 164. | 6296  | मैसर्स बी.के. मार्केटिंग प्रा. लि.                            |
| 132. | 7663  | मैसर्स ब्रावूरा फेब्रिका प्रा. लि.                            | 165. | 5684  | मैसर्स जे.जे. कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा. लि.                    |
| 133. | 3875  | मैसर्स कैलाश वुड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.                         | 166. | 468   | मैसर्स कोन एजेंसी (इंडिया) प्रा. लि.                          |
| 134. | 11170 | मैसर्स डेल्टा बेटरीस प्रा. लि.                                | 167. | 10863 | मैसर्स केस इम्पोर्टेक्स प्रा. लि.                             |
| 135. | 535   | मैसर्स विक्रम स्टूडियो लेब्स प्रा. लि.                        | 168. | 6419  | मैसर्स करीम सिल्क फिलचर प्रा. लि.                             |
| 136. | 9311  | मैसर्स हेब्बार लियो मार्केटिंग सर्विसेस प्रा. लि.             | 169. | 7327  | मैसर्स आरती पेकेजिंग प्रा. लि.                                |
| 137. | 7168  | मैसर्स एम.आई.टी. एसोसिएट्स प्रा. लि.                          | 170. | 4747  | मैसर्स एम.जी. साईटिफिक इक्वीपमेंट्स प्रा. लि.                 |
| 138. | 8632  | मैसर्स अमरवान कंस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.                       | 171. | 4802  | मैसर्स गिन्स मोबाइल्स प्रा. लि.                               |
| 139. | 9762  | मैसर्स गणेश मशीन टूल्स प्रा. लि.                              | 172. | 11542 | मैसर्स डा. अवस्थी एण्ड एसोसियेट्स कंसलटेंट्स प्रा. लि.        |
| 140. | 9880  | मैसर्स एंजिल चिट फण्ड प्रा. लि.                               | 173. | 9516  | मैसर्स एनु मैनेजमेंट कंसलटेंट्स प्रा. लि.                     |

| 1    | 2     | 3   |
|------|-------|---|
| 174. | 9162  | मैसर्स माय इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.                     |
| 175. | 9021  | मैसर्स सुमेख मेनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.               |
| 176. | 10712 | मैसर्स आनलाइन ट्रेवल्स प्रा. लि.                        |
| 177. | 9544  | मैसर्स पर्ल इंजीनियरिंग प्रा. लि.                       |
| 178. | 8427  | मैसर्स बेंगलोर इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.                 |
| 179. | 8808  | मैसर्स इंटीग्रेटेड मटेरियल इम्पोर्ट प्रा. लि.           |
| 180. | 7388  | मैसर्स पूर्वा सैनिक सर्विसेस प्रा. लि.                  |
| 181. | 7811  | मैसर्स पिजो इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.                    |
| 182. | 7713  | मैसर्स इंटीग्रेटेड मेटल्स एण्ड इंस्ट्रुमेंट्स प्रा. लि. |
| 183. | 3354  | मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील एण्ड एलॉयज प्रा. लि.             |
| 184. | 7271  | मैसर्स एच.एस. इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसेज प्रा. लि.         |
| 185. | 8932  | मैसर्स लेण्डमार्क कनेक्टर्स प्रा. लि.                   |
| 186. | 2908  | मैसर्स रनर्स सिनेमास प्रा. लि.                          |
| 187. | 8040  | मैसर्स केनेरा इंडस्ट्रीयल कम्बाईन्स प्रा. लि.           |
| 188. | 11004 | मैसर्स सौन्दर्या इस्टेट प्रा. लि.                       |
| 189. | 8292  | मैसर्स नार्थ साउथ न्यूट्रीयेन्स प्रा. लि.               |
| 190. | 8293  | मैसर्स एराईस होम एड्स प्रा. लि.                         |
| 191. | 11595 | मैसर्स मधु आर्ट स्टूडियो प्रा. लि.                      |

| 1    | 2     | 3  |
|------|-------|--|
| 192. | 11266 | मैसर्स चन्ना वीरेश्वर चिट प्रा. लि.                    |
| 193. | 5139  | मैसर्स कर्नाटका सिंडिकेट फायनेन्स लि.                  |
| 194. | 8023  | मैसर्स सार्वजनिक प्रापर्टी डेवलपमेंट प्रा. लि.         |
| 195. | 9729  | मैसर्स त्रिडेण्ट इम्पेक्स प्रा. लि.                    |
| 196. | 9327  | मैसर्स वी.एन. इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स प्रा. लि. |
| 197. | 9187  | मैसर्स रायचूर टफ ट्रेड्स प्रा. लि.                     |
| 198. | 7690  | मैसर्स सूर्या हाउसिंग (इंडिया) प्रा. लि.               |
| 199. | 3712  | मैसर्स स्वपनलोक एस्टेट प्रा. लि.                       |
| 200. | 10347 | मैसर्स रेसीडेन्सी मार्बल्स एण्ड एक्सपोर्ट प्रा. लि.    |
| 201. | 9676  | मैसर्स स्वर्णम आयल्स प्रा. लि.                         |
| 202. | 7045  | मैसर्स चिग्स फेब्रिका प्रा. लि.                        |
| 203. | 7743  | मैसर्स सिमेल इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.  |
| 204. | 6105  | मैसर्स आशमायुग (इंडिया) प्रा. लि.                      |
| 205. | 6122  | मैसर्स एल.सी. ट्रांसपोर्टर्स प्रा. लि.                 |
| 206. | 7641  | मैसर्स सिग्मा पेंट्स (कर्नाटका) लि.                    |

सी. सजीवन  
सहायक कंपनी पंजीयक  
कर्नाटका

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 9th October 2006

No. F. 20/2006-SCA (I).—Shri S. K. Dudani, Offg. Deputy Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of September 30, 2006 on his attaining the age of superannuation.

S. CHATTERJEE  
Additional Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 4th September 2006

No. A-19017/04/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS.-II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint Shri B. S. Jolly, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in CSSS cadre of UPSC w.e.f. the forenoon of 1st September, 2006 to 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/05/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS.-II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint Shri P. K. Khera, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in CSSS cadre of UPSC w.e.f. the forenoon of 1st September, 2006 to 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for

regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.

- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/06/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS.-II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint Smt. Manju Arora, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in CSSS cadre of UPSC w.e.f. the forenoon of 1st September, 2006 to 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 6th October 2006

No. DP/Pers. I/2006/215/3/32/2001.—Shri B. N. Jha relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.09.2006 on attaining the age of superannuation.

ANURAG  
Supdt. of Police (Pers.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL,  
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110 003, the 26th September 2006

No. O. II. 3698/06-CRC(MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Vishal Malhotra as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the afternoon of 6.9.2006 till further order. He is posted to 156 Bn., CRPF.

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

No. O. II. 3606/03-CRC (MOs).—On acceptance of her resignation from service by the competent authority, Dr. (Mrs.) Ritu, MO (IRLA-5736), GC, CRPF, Jalandhar has been struck off from the strength of said GC w.e.f. 8.4.2006 (AN). Accordingly, her name stands deleted from the strength of the Force from 8.4.2006 (AN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

No. O. II. 3523/95-CRC (MOs).—On acceptance of her resignation from service by the competent authority, Dr. (Mrs.) Abha Gupta, SMO (IRLA-4236), GC, CRPF, Pinjore has been struck off from the strength of said GC w.e.f. 12.5.2006 (AN). Accordingly, her name stands deleted from the strength of the Force from 12.5.2006 (AN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

No. O. II. 3684/06-CRC (MOs).—On acceptance of his resignation from service by the competent authority, Dr. Rizwan Gani, MO (IRLA-6723), 76 Bn, CRPF, has been struck off from the strength of said Unit w.e.f. 9.8.2006 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 9.8.2006 (AN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

The 29th September 2006

No. O. II-3700/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Abu Lais Mostak Ahmad as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 29.8.2006 till further order. He is posted to 10 Bn CRPF.

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers-I)

No. O. II-3701/06-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Jitu Kalita as Medical Officer in Central Police Reserve Force in temporary capacity from the forenoon of 18.09.2006 till further order. He is posted to 171 Bn CRPF.

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers.-I)

DIRECTORATE OF COORDINATION  
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 5th October 2006

No. A. 12012/1/AD/2006-Admn. II.—S/Shri Naresh Kumar and J. K. Sood, Extra Assistant Directors of this Directorate

have been promoted to the post of Assistant Director in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- with effect from 4th September, 2006 until further orders.

KAMALESH DEKA  
Director Police Telecommunications

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 22nd September 2006

No. E-16015/MEA/05/Pers. II/2602.—Consequent upon appointment as Assistant Director in Directorate of Enforcement under the Department of Revenue, on deputation basis, for a period of three years, Shri Sharad Choudhry, Deputy Commandant, CISF has relinquished the charge of the post of DC, CISF (NS), New Delhi w.e.f. 19.07.2006 (AN) and assumed the charge of Assistant Director in Directorate of Enforcement on 20.07.2006 (FN).

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)  
DELHI

New Delhi- 110 002, the 29th September 2006

No. Admn. O. O. No. 39.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Ved Prakash Jain, Sr. A. O. of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the afternoon of 31.10.2006.

His date of birth is 20.10.1946 and date of joining is 12.8.1968.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

The 6th October 2006

No. Admn. O. O. No. 43.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Abhimanyu Verma, Sr. Audit Officer of this office will be retiring from the Service of the Government of India with effect from the afternoon of 30.11.2006.

His date of birth is 9.11.1946 and date of joining is 1.8.1969.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
(CENTRAL REVENUES)

New Delhi-110 002, the 5th October 2006

No. Admn. I/O.O. No. 166.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Shri Vinod

Sharma, Assistant Audit Officer of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 29.9.2006 (A/N) until further orders.

K. PRASAD  
Director (Admn.)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR  
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 6th October 2006

No. 5952-GE-I/13-2006.—The following IA & AS Officers have retired/resigned from Government service with effect from the date shown against their name :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Shri C. S. Nair      | Retired on superannuation w.e.f. 30.09.2006 (AN) |
| 2. Shri Bhuvanesh Yadav | Resigned w.e.f. 26.08.2006 (AN)                  |

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptr. and  
Auditor General (P)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KARNATAKA

Bangalore, the 5th October 2006

No. ES I/A 8/AO/2006-2007/166.—The Accountant General (A & E) is pleased to promote Sri Chandrasekharaiah K. N., Assistant Accounts Officer (Unique I. D. No. KABNE 209 0065) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 05.10.2006 FN or from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by him for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22 (I)(a)(i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 4th October 2006

No. OE (Cash)/Pen/10-2/2006-2007.—The following officers of the Office of the Principal Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the date noted against their names :—

| Sl. No. | Name & Designation                               | Date of Retirement | Remarks        |
|---------|--|--------------------|----------------|
| 1.      | S/Shri<br>E. M. Mohammed<br>Senior Audit Officer | 31.08.2006         | Superannuation |
| 2.      | K. M. Mani<br>Senior Audit Officer               | 31.08.2006         | Superannuation |

DIVAKARAN PILLAI  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 3rd October 2006

No. A-19011/578/2006-Estt. A.—In compliance with the Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi, Order No. 12016/2/JTS (P)/2005-ISS dated 11.8.2006 Smt. S. S. Bhaisare, Statistical Officer Grade-I is promoted to the post of Asstt. Mineral Economist (Stat) Junior Time Scale (JTS) in Indian Bureau of Mines w.e.f. 14.8.2006 (A.N.).

S. DASGUPTA  
Admn. Officer  
for Controller General

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 19th September 2006

No. 38017/2/2006-M. I.—On his attainment the age of superannuation Shri Rajendra Singh, Asstt. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, Sub-office, Dehradun, retired from Government Service on 31.07.2006 (AN).

S. K. GADI  
Under Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 27th September 2006

No. PD/6(1)/2006-R-III/2006/9191.—Controller, BARC appoints Shri K. Venkat Subramanian, Assistant, BARC, Mumbai to officiate as Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 14th October, 2005 under Next Below Rule of FR 22 (ii) while he was on deputaion to JIPMER, Pondicherry. On his repatriaion, he has assumed the charge of Assistant Personnel Officer in BARC on the forenoon of 4th September, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASRATHAN  
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400 094, the 29th September 2006

No. HWB/R/1 (16)-K/2006/979.—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri N. S. Pugazhendhi, Assistant Accountant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in Heavy Water Plant (Kota) in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- from the forenoon of 28th June, 2006 until further order.

N. J. SIMON  
Admn. Officer

No. HWB/R/1 (36)-PS/2006/981.—Chief Executive, Heavy Water Board appoint Shri Thankachen Kanjakkal, Stenographer Grade I, Heavy Water Board (Central Office) to officiate as Private Secretary (NS) in scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the same office with effect from the forenoon of September 19, 2006 until further orders.

N. J. SIMON  
Admn. Officer-III

The 4th October 2006

No. HWB/R/5 (2)-C. O./2006/984.—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Shri Gangaram Rajaram Rawool, Senior Clerk, Heavy Water Board (Central Office), Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 17th August, 2006 (Forenoon) to September 22, 2006 (Afternoon).

N. J. SIMON  
Admn. Officer

(NUCLEAR FUEL COMPLEX)

Hyderabad-500 062, the 7th October 2006

No. NFC/PAR. II/8-2006/319.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers grade 'G' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grade of Scientific Officer/Engineer 'H' (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) with effect from 01.08.2006 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. Name  
No.

1. Shri N. Panchapakesan
2. Shri B. S. Krishnamurthy
3. Shri V. S. Sastry

A. S. LAXMAN RAO  
Admin. Officer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Accurate Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 15th February 2006

No. u/s 560(3)/2005/55/43852/11026.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Accurate Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Riasa Stock Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/51796/15073.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Riasa Stock Holdings Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. E. S. S. Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58548/15076.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. E. S. S. Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lasting Values Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58610/15079.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lasting Values Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiv Sai Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58358/15094.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shiv Sai Travels Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. G. Textiles Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58228/15100.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. D. G. Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Savita Metals Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58691/15103.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Savita Metals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. H. C. Chandna Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58491/15168.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H. C. Chandna Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sylvan Biotech Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/51751/15171.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sylvan Biotech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. M. Films Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/51420/15174.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. M. Films Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sahni Kler Hospitals Private Limited

New Delhi-110019, the 24th February 2006

No. SES-2003/560(5)/55/58596/15177.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahni Kler Hospitals Private Limited has this day been struck off from

the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Viva Steel Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/48824/16002.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Viva Steel Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Masa Domestic Appliances Industries  
Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56239/19267.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Masa Domestic Appliances Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jainsons Traders and Investors Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16045/19427.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jainsons Traders and Investors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. C. A. Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16691/19430.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. C. A. Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Northland Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16808/19433.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Northland Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajsons Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16964/19436.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajsons Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Ganpati Textiles Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/16480/19439.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Ganpati Textiles Private Limited has this day been struck off from the

Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikas Rasayan (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/30918/19507.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vikas Rasayan (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sofital Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/30044/19510.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sofital Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prime Seeds Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/30648/19513.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prime Seeds Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pioneer Builders & Investments Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/65146/19519.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pioneer Builders & Investments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kumb Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/65723/19546.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kumb Securities Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Santosh Pollution Control Private Limited

New Delhi-110019, the 17th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/30383/19552.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Santosh Pollution Control Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganpat Break & Clutch Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/125905/19555.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganpat Break & Clutch Private Limited unless cause is shown to the

contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. T. S. Synthetics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/19299/19558.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. T. S. Synthetics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Renshar Financial Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74727/19588.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Renshar Financial Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jungi Finance & Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74489/19591.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jungi Finance & Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Usha Nixxo Airlon Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74363/19594.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Usha Nixxo Airlon Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Stellar Cartons Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74725/19597.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Stellar Cartons Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hiteshi Ceramics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74553/19600.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hiteshi Ceramics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. N. K. Conelec Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74880/19603.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. N. K. Conelec Private Limited has this day been struck off from

the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanchay Mutual Benefits Company  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/67784/19606.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanchay Mutual Benefits Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. A. V. Abhiyan Publication Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/67459/19609.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. A. V. Abhiyan Publication Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Strategic Options Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/67691/19612.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Strategic Options Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Syndicate Construction Company  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/6734/19613.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Syndicate Construction Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Navgrow Holdings & Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/67178/19616.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Navgrow Holdings & Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Capital Springs Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/35585/19619.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Capital Springs Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rastogi Finsec Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/74513/19624.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rastogi Finsec Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiva Fabrics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/31241/19629.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiva Fabrics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. O. J. Insurance Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/112853/19634.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. O. J. Insurance Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. S. P. Encore Cold Storage Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/102292/19639.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. S. P. Encore Cold Storage Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sun Eye Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/99244/19684.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sun Eye Construction Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chandra Carbons Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40340/19843.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chandra Carbons Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. I. S. Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40964/19872.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. I. S. Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. J. Manufacturer Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74287/19875.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N. J. Manufacturer Private Limited has this day been struck off

from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lagoon Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74237/19878.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lagoon Securities Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. San Cool (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74978/19881.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. San Cool (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. U. P. Power Partners Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74767/19884.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. U. P. Power Partners Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Silver Tone Cap-Fin Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74312/19887.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Silver Tone Cap-Fin Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Experts Hotels & Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40983/19890.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Experts Hotels & Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Discover Prints (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/34358/19899.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Discover Prints (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cougers Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/35001/19899.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cougers Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kapson Investment Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13086/19902.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kapson Investment Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhor Chit & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13324/19905.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhor Chit & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Positive Garments Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40013/19908.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Positive Garments Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ripple Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40496/19911.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ripple Chits Private Limited has this day been struck off from the

Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aryans (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13143/19914.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aryans (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Auro Tools Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13997/19917.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Auro Tools Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kitco Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13588/19920.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kitco Foods Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Janhet Utpadan Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13273/19926.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Janhet Utpadan Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samaj Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13180/19929.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Samaj Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Speedbird Couriers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/40258/19932.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Speedbird Couriers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Smart Marketing Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74594/19935.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Smart Marketing Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Master Fincap Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74246/19938.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Master Fincap Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Forward Line Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74841/19941.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Forward Line Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. E. Agro Products Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/74923/19944.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. E. Agro Products Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quintessant Consulting Group  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/21831/19949.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Quintessant Consulting Group Private Limited unless cause is shown to

the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kawal Lochan Corp (Bharat) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/25637/19952.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kawal Lochan Corp (Bharat) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tarram Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/64299/19957.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tarram Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vitax Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/46341/19962.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vitax Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rampur Metal Die Cast Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/19108/19967.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rampur Metal Die Cast Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chives India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/98980/19972.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chives India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Starlinks India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/116286/19977.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Starlinks India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palomino India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/98982/19982.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Palomino India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. L. M. Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/89221/19987.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. L. M. Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N. A. Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/42968/19992.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. N. A. Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. C. Network & Computers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/58138/19997.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J. C. Network & Computers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yoga Vashishta Films Productions  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/56988/20002.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Yoga Vashishta Films Productions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiva Traders & Holdings Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/27986/20012.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiva Traders & Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Great Contractors & Suppliers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/27047/20067.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Great Contractors & Suppliers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Selected Security Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34213/20229.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Selected Security Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rains Air Express Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34406/20232.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rains Air Express Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Technics Computers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34292/20235.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Technics Computers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swastik Advisors Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34990/20238.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swastik Advisors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. V. M. Autonem Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/17433/20241.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. V. M. Autonem Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pleasure Seekers Travels & Tours  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/17189/20244.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pleasure Seekers Travels & Tours Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Achkay Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34222/20247.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Achkay Impex Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arms Financial Communications  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/72662/20250.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arms Financial Communications Private Limited has this day been struck

off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nice Developer & Promoter Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/30824/20253.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nice Developer & Promoter Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tex-Mak Trade Links Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/34262/20256.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tex-Mak Trade Links Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Landscape Finance & Investment  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/31771/20259.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Landscape Finance & Investment Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Goura Strips Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/32865/20262.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Goura Strips Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. A. P. Agency Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/51859/20265.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. A. P. Agency Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Meherbaba Diesel Engineers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/72294/20271.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meherbaba Diesel Engineers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jassy Briquette Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/72708/20274.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jassy Briquette Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kwaliti International Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/72263/20277.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kwaliti International Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shriji Super Stores Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/32435/20280.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shriji Super Stores Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. I. Chook Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/05/32399/20300.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. I. Chook Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anjulika Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/66628/20321.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anjulika Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yogdarshan Portfolio Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/66620/20324.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yogdarshan Portfolio Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. S. M. Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/66551/20327.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. S. M.

Securities Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ketan Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/66559/20330.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ketan Finvest Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Academic Coordinators (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/60695/20333.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Academic Coordination (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amhala Marketing Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/330071/20336.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambala Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sahaj Housing & Motor Finance  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/35168/20384.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahaj Housing & Motor Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pasadena Electronic Modular Systems  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/21174/20390.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pasadena Electronic Modular Systems Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Appu Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/21127/20393.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Appu Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Marigold Chemicals Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/21651/20399.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marigold Chemicals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Rajdhani Refrigeration Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/35385/20410.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New Rajdhani Refrigeration Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Multicom Associates Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/18755/20477.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Multicom Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Banquet Acqua Minerals Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/63735/20541.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Banquet Acqua Minerals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shivalik Petroleum Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/64882/20546.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivalik Petroleum Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kawal Lochan Times Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/24331/20566.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kawal Lochan Times Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shiva Cars Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/106826/20571.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shiva Cars Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Green View Promoters Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/70845/20576.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Green View Promoters Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hitaishi Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/18076/20581.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hitaishi Electronics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paintal & Company Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/80302/20586.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Paintal & Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Worldwide Holidays Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/88836/20591.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Worldwide Holidays Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ricci Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/64042/20596.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ricci Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akshita Overseas Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/93444/20601.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akshita Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. P. Powerlines Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/31323/20606.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. P. Powerlines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. I-Gen Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/113990/20611.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. I-Gen Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Techcreed (India) Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/60253/20616.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Techcreed (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pride Pharmaceuticals Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/87831/20621.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pride Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Modular India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/85209/20686.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Modular India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Drive Solutions Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/109775/20696.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Drive Solutions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Super Shine Star Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/29090/20706.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Super Shine Star Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sindhuja Finlease (India) Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/75588/20711.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sindhuja Finlease (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. C. P. Estate Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/84093/20761.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. C. C. P. Estate Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Protect Health (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/91238/20766.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Protect Health (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashoman Capital Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/53967/20771.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ashoman Capital Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anika Enterprises Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/42148/20776.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anika Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aggarwal Appliances Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/31352/20781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aggarwal Appliances Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mega Pert Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/75575/20781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mega Pert Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dynasty Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/35745/20831.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dynasty Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shekhar Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/35318/20834.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shekhar

Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Delco Chit Fund and Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13104/20923.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delco Chit Fund and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Petroleum Products India Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/36176/20955.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Petroleum Products India Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Star Tech Containers Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/100950/20958.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Star Tech Containers Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aims Finance & Construction Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62680/20964.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aims Finance & Construction Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lucknow Construction Company  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/44994/20987.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lucknow Construction Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parichit Finance and Chit Fund  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13710/20988.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Parichit Finance and Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asha International Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13983/20991.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asha International Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhai Gehla Singh Chit & Finance  
Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13432/20994.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bhai Gehla Singh Chit & Finance Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dinesh Builders Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/13553/20997.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dinesh Builders Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sujata Electronics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/28090/21006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sujata Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Turning Point Ads Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/28619/21009.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Turning Point Ads Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anurag Associates Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/28942/21018.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anurag Associates Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rock Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/54113/21027.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rock Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. V. A. R. Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/60054/21084.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. V. A. R. Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Punch Parag Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/18900/21154.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Punch Parag Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Somko Distilleries Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/84190/21161.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Somko Distilleries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sakun Lampshades Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/88346/21164.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sakun Lampshades Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Snodrop Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/85365/21167.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Snodrop Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mideast Audio Visual Studio Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/46748/21170.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mideast Audio Visual Studio Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rao Associates Management Services Private  
Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/100945/21199.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rao Associates Management Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Falcon Express Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/111809/21205.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Falcon Express Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Angerlehner Pipes Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/112488/21208.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Angerlehner Pipes Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vertex Fincap Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/85022/21211.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vertex Fincap Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. After Seven India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/88337/21222.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. After Seven India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vistar Components Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/85413/21214.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vistar Components Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hand Tex India Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/85612/21223.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hand Tex India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Impact Express Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/87537/21217.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Impact Express Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aspu Securities Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/87405/21226.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aspu Securities Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haiyin Marketing Services Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/109518/21222.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Haiyin Marketing Services Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mega Organics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/80929/21253.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mega Organics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Royal Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/28354/21337.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Royal Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. One Source Solution Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/104317/21355.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. One Source Solution Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Namaskar Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/28134/21343.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Namaskar Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Triumph Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/104443/21358.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Triumph Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bio Veda Recipe Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/104432/21346.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bio Veda Recipe Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Big Dreams Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/104444/21361.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Big Dreams Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Best Infotech Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/104441/21352.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Best Infotech Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajsons Varnish & Colour Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/73865/21365.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajsons Varnish & Colour Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sonia Metals Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/73310/21367.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sonia Metals Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trisha Infocosm Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/105276/21370.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Trisha Infocosm Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Regal Fire Works Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/88382/21373.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Regal Fire Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ranjit Sabikhi Architects Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES/2003/560(5)/55/73604/21376.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ranjit Sabikhi Architects Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Network Trading Company Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63086/21391.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Network Trading Company Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Bhooma Credit And Commerce Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63228/21392.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Bhooma Credit And Commerce Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Consolidated Metal Wire Industries Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63018/21395.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Consolidated Metal Wire Industries Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vakilsons Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63721/21398.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vakilsons Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Purti Fabrics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63411/21401.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Purti Fabrics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. R. Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/21189/21407.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. R. Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Structures (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/21880/21410.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paramount Structures (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alfred Allan Advertising Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/28754/21413.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alfred Allan Advertising Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Namokar Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/028433/21416.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Namokar Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. M. Agritech Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33068/21443.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. M. Agritech Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aardhya Finvest Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/83554/21446.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aardhya Finvest Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. L. Nagpal Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33372/21449.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. L. Nagpal Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nagpal Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/31240/21452.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nagpal Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhani Tyres Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/29613/21455.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhani Tyres Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajshikha Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33464/21482.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajshikha Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Auto Scooter (India) Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/33287/21491.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Auto Scooter (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V.R.J. Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/34202/21498.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V.R.J. Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akhi Tissue Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/51332/21501.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Akhi Tissue Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tripsons Holdings & Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/50676/21506.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tripsons Holdings & Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanyo Finance & Investment Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/72962/21511.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sanyo Finance & Investment Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Reliance Silica & Chemicals Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/90296/21516.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Reliance Silica & Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pacer Salora International Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/81289/21521.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pacer Salora International Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neset Exim Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/050625/21664.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neset Exim Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. I-Vault Softech Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/113620/21669.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. I-Vault Softech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Regale Fincap Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/86143/21674.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Regale Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vertical Spares Com Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/108098/21679.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vertical Spares Com Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Neeraj Packagings Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/29858/21684.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neeraj Packagings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alps Furnishing Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/121764/21689.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alps Furnishing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tanvin Enterprises Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/85432/21694.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tanvin Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poise Travels Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/68284/21699.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Poise Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M.B.S. Engineers Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/57149/21708.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M.B.S. Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sekurit India Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/96203/21709.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sekurit India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mehra Holdings Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/23189/21819.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mehra Holdings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajiv Sales and Consultancy Services Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/38956/21824.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rajiv Sales and Consultancy Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Perfect Solutions Tourlight Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/120071/21829.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Perfect Solutions Tourlight Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vaishali Leather Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/109301/21834.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vaishali Leather Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Reliance Detergents Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/345251/21839.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Reliance Detergents Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sun House Exports & Travel Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/10918/21844.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sun House Exports & Travel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S.C.V. Consultants Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/8310/21849.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S.C.V. Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. AOSL Stock Brokers Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/69710/21860.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. AOSL Stock Brokers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Transtech (India) Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/9670/21864.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Transtech (India) Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Belay Finance & Investment Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/066372/21867.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Belay Finance & Investment Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. La Chit Ads and Films Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/55137/21906.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. La Chit Ads and Films Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sant Steel Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/41526/21910.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sant Steel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. S. Communications Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/105036/21913.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. S. Communications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Banka Wears Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56721/21947.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Banka Wears Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Entrust Exports Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/56422/21950.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Entrust Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apex Smelting & Refining Co. Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/19737/21953.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Apex Smelting & Refining Co. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. Raman Metchem Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/73638/21958.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M. Raman Metchem Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Family Publications Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/59835/21963.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Family Publications Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Econ Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/63857/22044.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Econ Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Makhija Chit Fund Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/31203/22047.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Makhija Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Assam Power Partners (Company both unlimited  
Liability)

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62076/22067.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Assam Partners (Company both unlimited Liability) has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Attree Chits Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62205/22106.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Attree Chits Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Precision Shoe Components Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62487/22109.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Precision Shoe Components Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vishwajanya Exports Private Limited  
New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62872/22112.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishwajanya Exports Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. O. B. Fabrics Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/62373/22130.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. O. B. Fabrics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prompt Cargo Connections Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/68972/22245.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prompt Cargo Connections Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sasha Finance Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/59258/22248.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sasha Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bawa Cargo Travels Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/59399/22502.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bawa Cargo Travels Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M.K.G. Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/90589/22558.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. M.K.G. Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mega Tapes Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/109450/22739.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mega Tapes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Venasent Information Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 16th May 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/121683/22781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Venasent Information Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. E.M. Securities Limited

New Delhi-110019, the 25th May 2006

No. SES/2003/560(5)/55/62859/22883.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. E.M. Securities Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Biorg Foods Private Limited

New Delhi-110019, the 25 May 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/59898/22953.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Biorg Foods Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arjuna Arts & Crafts Private Limited

New Delhi-110019, the 25 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/37907/22959.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arjuna Arts & Crafts Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shanti Educational Foundation Private Limited

New Delhi-110019, the 25 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/76022/23061.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shanti Educational Foundation Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana New Delhi

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nirvan Exports Limited

New Delhi-110019, the 25 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/17082/23089.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nirvan Exports Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Queen Chit Fund Private Limited

New Delhi-110019, the 31st May 2006

No. SES-2003/560(3)/55/11402/23712.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Queen Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chetna Software Systems Private Limited

New Delhi-110019, the 31st May 2006

No. u/s 560(3)/SES/2005/55/33123/23721.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chetna Software Systems Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Creative Expressions Private Limited

New Delhi-110019, the 31st May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/78062/23726.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Creative Expressions Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Noida Appliances and Fabrications Private Limited

New Delhi-110019, the 31st March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/37241/23895.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Noida Appliances and Fabrications Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sahaj Properties Private Limited

New Delhi-110019, the 31st March 2006

No. SES-2003/560(5)/55/93719/23898.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahaj Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kashish Creations Private Limited

New Delhi-110019, the 31st May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/99700/23901.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kashish Creations Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mesco Cosmetics Limited

New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/25132/23904.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mesco Cosmetics Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Good Morning Marketing Private Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/114922/23910.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Good Morning Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gupta Stampings Private Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/25054/23911.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gupta Stamping Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. IHS Database Services India Private Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/91840/23917.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. IHS Database Services India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. CHEM-O-PLAST Private Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57858/24052.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. CHEM-O-PLAST Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Starling Merchandising Innovations Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/80409/24061.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Starling Merchandising Innovations Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dev Interiors Private Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/79225/24071.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dev Interiors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sarvodya Consultants Private Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/88482/24073.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sarvodya Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. DNP Enterprises Private Limited  
New Delhi-110019, the 31 May 2006

No. SES-2003/560(5)/55/57489/24099.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. DNP Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

D. R. CHATURVEDI  
Dy. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manchanda Impex Private Limited

New Delhi-110019, the 20th March 2006

No. SES-2003/560(3)/55/78215/25187.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Manchanda Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N. C. T. of Delhi & Haryana

In the matter of Companies Act 1956 and of the  
following Companies

Ahmedabad-380 013, the 29th September 2006

No. VI/ROC (KHM)U/S 560/2005/2175—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the Companies shall be deleted from the register of Companies and the following companies shall stand dissolved from the date of publication of this Notice :—

SES.....20005

List No. VI

| Sr.<br>No. | Regn. No.<br>of Co. | Name of the Company                    |
|------------|---------------------|--|
| 1.         | 04-31951            | Ashapura Ceramics Pvt. Ltd.            |
| 2.         | 04-32885            | Sanskrit Impex Consultant Pvt. Ltd.    |
| 3.         | 04-31458            | Ujjawal Polytex Pvt. Ltd.              |
| 4.         | 04-32875            | Mohata Stock Brokers Pvt. Ltd.         |
| 5.         | 04-21681            | Shrinkcon Plastic Pvt. Ltd.            |
| 6.         | 04-32099            | Steam Networking Solutions Pvt. Ltd.   |
| 7.         | 04-31608            | Anokli Enterprise Pvt. Ltd.            |
| 8.         | 04-31271            | Patparth Merchandise Ltd.              |
| 9.         | 04-31058            | Oriental Plasto Chem Pvt. Ltd.         |
| 10.        | 04-32574            | Archeng Construction Company Pvt. Ltd. |
| 11.        | 04-32609            | Darshan Computer Pvt. Ltd.             |
| 12.        | 04-31249            | Patpark Builders Ltd.                  |
| 13.        | 04-31125            | Ario Engineers Pvt. Ltd.               |
| 14.        | 04-38662            | Nishi Network Pvt. Ltd.                |
| 15.        | 04-31284            | Shaiv Finlease Pvt. Ltd.               |
| 16.        | 04-31893            | Module Software Systems Ltd.           |
| 17.        | 04-32829            | Diggaj Agro Private Ltd.               |
| 18.        | 04-30317            | Narshiji Finlease Pvt. Ltd.            |

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat  
Dadara Nagar and Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gopal Welding Cables Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 3rd October 2006

No. 04-33245/ROC (KHM) U/S 560/2005/2181—Notice is hereby given that pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gopal Welding Cables Pvt. Ltd.

Unless cause is shown is contrary, the name will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat  
Dadara Nagar and Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dutta Chemicals Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 3rd October 2006

No. 04-2970/ROC (KHM) U/S 560/2005/2184—Notice is hereby given that pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dutta Chemicals Pvt. Ltd.

Unless cause is shown is contrary, the name will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat  
Dadara Nagar and Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alpesh Machinery Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 3rd October 2006

No. 04-32527/ROC (KHM) U/S 560/2005/2987—Notice is hereby given that pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alpesh Machinery Pvt. Ltd.

Unless cause is shown is contrary, the name will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat  
Dadara Nagar and Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sweta Finstock Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 3rd October 2006

No. 04-27621/ROC (KHM) U/S 560/2005/2190—Notice is hereby given that pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sweta Finstock Pvt. Ltd.

Unless cause is shown is contrary, the name will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat  
Dadara Nagar and Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arun Dyestuff Pvt. Ltd.

Ahmedabad-380 013, the 3rd October 2006

No. 04-32526/ROC (KHM) U/S 560/2005/2193—Notice is hereby given that pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arun Dyestuff Pvt. Ltd.

Unless cause is shown is contrary, the name will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat  
Dadara Nagar and Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Bangalore, the 2006

No. CVS/SES 2005/560 (3)—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved:—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company                                     |
|---------|---------|---|
| 1       | 2       | 3   |
| 1.      | 8263    | M/s. Mahindra Housing & Finance Ltd.                    |
| 2.      | 5251    | M/s. Umamaheshwari Ginning & Pressing Company Pvt. Ltd. |
| 3.      | 3021    | M/s. Bangalore Tool Works Pvt. Ltd.                     |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 4.  | 4724  | M/s. Sneha Publishers Pvt. Ltd.                            |
| 5.  | 9540  | M/s. Gokul Mechanised Brick Industries Pvt. Ltd.           |
| 6.  | 10421 | M/s. Techno Tyre Soles Pvt. Ltd.                           |
| 7.  | 2227  | M/s. Automat & General Engineering Company Pvt. Ltd.       |
| 8.  | 10447 | M/s. Adri Constructions Pvt. Ltd.                          |
| 9.  | 7674  | M/s. Hyderabad Wooven Sacks Pvt. Ltd.                      |
| 10. | 8851  | M/s. Kesar Finance Pvt. Ltd.                               |
| 11. | 2338  | M/s. Cordi Pack Pvt. Ltd.                                  |
| 12. | 4465  | M/s. Narana Cable & Wire Industries Pvt. Ltd.              |
| 13. | 11175 | M/s. Gokul Brindavan Hotels Pvt. Ltd.                      |
| 14. | 3854  | M/s. Chandravarkar & Thacker (India) Pvt. Ltd.             |
| 15. | 10856 | M/s. Remarkable Financial Services & Enterprises Pvt. Ltd. |
| 16. | 4669  | M/s. Swarup Metals Pvt. Ltd.                               |
| 17. | 11665 | M/s. Pallavi Impex Pvt. Ltd.                               |
| 18. | 8005  | M/s. MS Plastics Pvt. Ltd.                                 |
| 19. | 5551  | M/s. Machines & Tools Syndicate Pvt. Ltd.                  |
| 20. | 2033  | M/s. Jayakumar Engineering (Kerala) Pvt. Ltd.              |
| 21. | 10570 | M/s. Vviva Distilleries Pvt. Ltd.                          |
| 22. | 8374  | M/s. Rohini Processing Pvt. Ltd.                           |
| 23. | 11205 | M/s. Anil Multinologies Pvt. Ltd.                          |
| 24. | 7198  | M/s. Chenille Designs & Marketing Pvt. Ltd.                |
| 25. | 3839  | M/s. Eyelite Optical Industries Pvt. Ltd.                  |
| 26. | 7177  | M/s. Kamath Investments Pvt. Ltd.                          |
| 27. | 3901  | M/s. Kamath Threads Ltd.                                   |
| 28. | 6511  | M/s. Regal Voyages Pvt. Ltd.                               |
| 29. | 10506 | M/s. Omni Creative Resources Pvt. Ltd.                     |
| 30. | 3936  | M/s. Amar Distillers Pvt. Ltd.                             |
| 31. | 7886  | M/s. The Maland Mutual Development Nidhi Ltd.              |
| 32. | 4619  | M/s. Kumar Transcon Pvt. Ltd.                              |
| 33. | 6630  | M/s. Shabbir Investment & Trading Pvt. Ltd.                |
| 34. | 9365  | M/s. Chanchu Press Pvt. Ltd.                               |

| 1   | 2    | 3                                    |
|-----|------|--------------------------------------|
| 35. | 8512 | M/s. Paramount Sleeves Pvt. Ltd.     |
| 36. | 5374 | M/s. D G Appliances Pvt. Ltd.        |
| 37. | 6100 | M/s. Arr Gee Enterprises Pvt. Ltd.   |
| 38. | 3040 | M/s. Technology & Sciences Pvt. Ltd. |
| 39. | 7495 | M/s. Rupavahini Video Pvt. Ltd.      |

C. V. SAJEEVAN  
Asst. Registrar of Companies  
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies  
Bangalore, the 2006

No. CVS/560(5)SES/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register of Companies and the said companies shall stand dissolved on the publication of this notice in the Official Gazette :—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company                                 |
|---------|---------|---|
| 1       | 2       | 3   |
| 1.      | 3657    | M/s. Om Steel Industries Pvt. Ltd.                  |
| 2.      | 10929   | M/s. Champion Rubbers Pvt. Ltd.                     |
| 3.      | 8081    | M/s. Shashi Kumar Packaging Pvt. Ltd.               |
| 4.      | 11689   | M/s. Mahendra Sericulture Pvt. Ltd.                 |
| 5.      | 6574    | M/s. Polybeton (India) Ltd.                         |
| 6.      | 10815   | M/s. Nulvi Investment & Hire Purchase Co. Pvt. Ltd. |
| 7.      | 9804    | M/s. Netron Plast Pvt. Ltd.                         |
| 8.      | 6301    | M/s. Sree Chamundeshwari Housing Ltd.               |
| 9.      | 6803    | M/s. Keo Coat Industrial Finishing Pvt. Ltd.        |
| 10.     | 11159   | M/s. Pankaj Micomocomp Technik Pvt. Ltd.            |
| 11.     | 8856    | M/s. Dinesh Road Links Pvt. Ltd.                    |
| 12.     | 8801    | M/s. Saighar Equipments Pvt. Ltd.                   |
| 13.     | 4371    | M/s. Manu Paper Print Pvt. Ltd.                     |
| 14.     | 9468    | M/s. Adush Bamboo Vikas Nigam Pvt. Ltd.             |
| 15.     | 10357   | M/s. Raja Vinayaka Drugs Pvt. Ltd.                  |
| 16.     | 6196    | M/s. Bertile Pinto & Co. Pvt. Ltd.                  |

| 1   | 2     | 3  |
|-----|-------|--|
| 17. | 5689  | M/s. Metal Profiles Pvt. Ltd.                        |
| 18. | 5939  | M/s. Mahanth Cement & Minerals Pvt. Ltd.             |
| 19. | 9633  | M/s. Moonlight Exports Pvt. Ltd.                     |
| 20. | 10713 | M/s. Sas Oil Mills Pvt. Ltd.                         |
| 21. | 5605  | M/s. Lube Oil (India) Pvt. Ltd.                      |
| 22. | 2543  | M/s. Harsha Tools Pvt. Ltd.                          |
| 23. | 5537  | M/s. Mahindra Estates & Agricultural Farms Pvt. Ltd. |
| 24. | 5513  | M/s. Gadiya Investment Ltd.                          |
| 25. | 8535  | M/s. Nitin Process Equipment Pvt. Ltd.               |
| 26. | 5269  | M/s. Rock Gibraltar Investments Pvt. Ltd.            |
| 27. | 5531  | M/s. Horizon Marketing & Services Pvt. Ltd.          |
| 28. | 2814  | M/s. United Chains Pvt. Ltd.                         |
| 29. | 11384 | M/s. Smiths Electronics Pvt. Ltd.                    |
| 30. | 11791 | M/s. Suraksha Wire Products Pvt. Ltd.                |
| 31. | 4502  | M/s. Aqua Drill & Engineering Co. Pvt. Ltd.          |
| 32. | 11896 | M/s. Padmavathy Buildtech Pvt. Ltd.                  |
| 33. | 3275  | M/s. Murthy Engineering Industries Pvt. Ltd.         |
| 34. | 6159  | M/s. Yelnad Cements Pvt. Ltd.                        |
| 35. | 8044  | M/s. Krithika Network Consultants Pvt. Ltd.          |
| 36. | 3216  | M/s. Munirabad Drug Company Pvt. Ltd.                |
| 37. | 10730 | M/s. Shri Ram Mining Company Pvt. Ltd.               |
| 38. | 11715 | M/s. Pranamami Garmex Pvt. Ltd.                      |
| 39. | 9067  | M/s. SLP Electronics Pvt. Ltd.                       |
| 40. | 11442 | M/s. Classic Confectionery Pvt. Ltd.                 |
| 41. | 8742  | M/s. Garden City Travels Pvt. Ltd.                   |
| 42. | 9308  | M/s. RGK Builders Pvt. Ltd.                          |
| 43. | 8152  | M/s. Chande Coffee Co. Pvt. Ltd.                     |
| 44. | 6807  | M/s. Cae Systems & Software Pvt. Ltd.                |
| 45. | 6977  | M/s. Admark Communications Pvt. Ltd.                 |
| 46. | 7243  | M/s. Sree Ommee Edible Oils Pvt. Ltd.                |
| 47. | 7511  | M/s. Seeco Electric Ltd.                             |
| 48. | 6505  | M/s. Upright Engineering Works Pvt. Ltd.             |

| 1   | 2     | 3   |
|-----|-------|---|
| 49. | 6675  | M/s. Anshi Leasing & Investments Pvt. Ltd.                            |
| 50. | 8015  | M/s. Cauvery Cranes Pvt. Ltd.   |
| 51. | 7952  | M/s. Almin Data Products Pvt. Ltd.                                    |
| 52. | 8061  | M/s. Machine Torge Pvt. Ltd.  |
| 53. | 2836  | M/s. Woodlite Pvt. Ltd.   |
| 54. | 9396  | M/s. Swamy Floor Mills Pvt. Ltd.                                      |
| 55. | 5922  | M/s. Ashwini Oil Mills Pvt. Ltd.                                      |
| 56. | 8060  | M/s. Disposables & Reagents Pvt. Ltd.                                 |
| 57. | 5900  | M/s. Sarlee Innovations Pvt. Ltd.                                     |
| 58. | 10549 | M/s. Incan Export Consortium Pvt. Ltd.                                |
| 59. | 9505  | M/s. Macro Foods & Beverages Pvt. Ltd.                                |
| 60. | 5931  | M/s. Napco Electronics Pvt. Ltd.                                      |
| 61. | 4569  | M/s. Banashankari Press Works Pvt. Ltd.                               |
| 62. | 11990 | M/s. Shankar & shashtry Biotech Pvt. Ltd.                             |
| 63. | 11914 | M/s. Kadur Air Pvt. Ltd.  |
| 64. | 3240  | M/s. Karnataka Filters Pvt. Ltd.                                      |
| 65. | 11803 | M/s. Vedavathi Sericulture Pvt. Ltd.                                  |
| 66. | 1474  | M/s. Mysore Advertising Co. Pvt. Ltd.                                 |
| 67. | 10219 | M/s. Raj & Raj Plastic Co. Pvt. Ltd.                                  |
| 68. | 1390  | M/s. Sri Mukambika Agricultural Estates & Forest Industries Pvt. Ltd. |
| 69. | 7751  | M/s. GRP Investments & financial Management Services Pvt. Ltd.        |
| 70. | 9972  | M/s. OBM Marketing Pvt. Ltd.  |
| 71. | 7479  | M/s. Kalyan Soft Drinks Pvt. Ltd.                                     |
| 72. | 8659  | M/s. Arsikere Construction Pvt. Ltd.                                  |
| 73. | 8995  | M/s. Anamak Technologies Pvt. Ltd.                                    |
| 74. | 3935  | M/s. Kalpana Constructions Pvt. Ltd.                                  |
| 75. | 7735  | M/s. Maathru Trading Co. Pvt. Ltd.                                    |
| 76. | 10607 | M/s. Sowmaya Consultancy Services Pvt. Ltd.                           |
| 77. | 10776 | M/s. Sysorex Productions Pvt. Ltd.                                    |
| 78. | 11908 | M/s. Mictel Technology Pvt. Ltd.                                      |
| 79. | 9441  | M/s. Langford Leather Products Pvt. Ltd.                              |
| 80. | 11372 | M/s. Vagdevi Chirt Funds Pvt. Ltd.                                    |
| 81. | 9387  | M/s. Kisha Tours & Travels Pvt. Ltd.                                  |
| 82. | 5463  | M/s. Hotline Products Pvt. Ltd.                                       |

| 1    | 2     | 3  |
|------|-------|--|
| 83.  | 8372  | M/s. Eneske Tiles (India) Pvt. Ltd.                                |
| 84.  | 5955  | M/s. Padmavathy Cylinder & Forgings Pvt. Ltd.                      |
| 85.  | 2826  | M/s. Agro Services Pvt. Ltd.                                       |
| 86.  | 6897  | M/s. Cap Leo Consultancy Services Pvt. Ltd.                        |
| 87.  | 10477 | M/s. Janaseva Printers & Publishers Pvt. Ltd.                      |
| 88.  | 2531  | M/s. CMM Incense Products Pvt. Ltd.                                |
| 89.  | 6081  | M/s. Vivekanda Ceements Pvt. Ltd.                                  |
| 90.  | 9029  | M/s. SNG Furnace Products Pvt. Ltd.                                |
| 91.  | 9549  | M/s. Sri Vidya Granite Tile Exports Pvt. Ltd.                      |
| 92.  | 8652  | M/s. Shri Spoorti Domestic products Pvt. Ltd.                      |
| 93.  | 7868  | M/s. Cauvery Granites Pvt. Ltd.                                    |
| 94.  | 9377  | Cauvery Apparels M/s. Pvt. Ltd.                                    |
| 95.  | 9207  | M/s. Super Deep Well Pumps Pvt. Ltd.                               |
| 96.  | 8098  | M/s. Hydrazine & Allied Chemicals Pvt. Ltd.                        |
| 97.  | 11860 | M/s. Kosmos Educational Aids Pvt. Ltd.                             |
| 98.  | 9553  | M/s. ASP Promoters Ltd.  |
| 99.  | 6292  | M/s. PV Consultants Pvt. Ltd.                                      |
| 100. | 9683  | M/s. Tunga Sea Foods Pvt. Ltd.                                     |
| 101. | 11917 | M/s. J. super Serve Express Courier & Marketing Services Pvt. Ltd. |
| 102. | 11226 | M/s. Ponnu Granites Pvt. Ltd.                                      |
| 103. | 6001  | M/s. Tabaste Processors Pvt. Ltd.                                  |
| 104. | 7156  | M/s. Circa Engineering Pvt. Ltd.                                   |
| 105. | 10808 | M/s. Brahmagiri Plantation Pvt. Ltd.                               |
| 106. | 11330 | M/s. Polar Cold Storage Pvt. Ltd.                                  |
| 107. | 11328 | M/s. Himalaya Fruit Processing Pvt. Ltd.                           |
| 108. | 2572  | M/s. Imagine India Pvt. Ltd.                                       |
| 109. | 7222  | M/s. Maxwell Foods Pvt. Ltd.                                       |
| 110. | 9004  | M/s. M R Fruits Pvt. Ltd.  |
| 111. | 10229 | M/s. Conquest Electronics Pvt. Ltd.                                |
| 112. | 1965  | M/s. Campi Engineers Pvt. Ltd.                                     |
| 113. | 10399 | M/s. Povitre Resorts Pvt. Ltd.                                     |
| 114. | 6302  | M/s. Model Nursing Home Pvt. Ltd.                                  |
| 115. | 5776  | M/s. Akshaya Forge Pvt. Ltd.                                       |

| 1    | 2     | 3   | 1    | 2     | 3   |
|------|-------|---|------|-------|---|
| 116. | 8354  | M/s. Paragon Leathers Ltd.                              | 145. | 8565  | M/s. Sapala Finance & Investments Pvt. Ltd.               |
| 117. | 7965  | M/s. Punja Chemicals Ltd.                               | 146. | 3910  | M/s. Delta Extrusions Pvt. Ltd.                           |
| 118. | 2785  | M/s. Amelcon Systems Pvt. Ltd.                          | 147. | 7675  | M/s. Chamundi Engineering Works Pvt. Ltd.                 |
| 119. | 8529  | M/s. Bangalore Marines Ltd.                             | 148. | 10711 | M/s. Omega Cadd Station Pvt. Ltd.                         |
| 120. | 5311  | M/s. Pratibha Paper Mills Pvt. Ltd.                     | 149. | 10924 | M/s. Kashyap Electronics Pvt. Ltd.                        |
| 121. | 10063 | M/s. Contact Marketing & Consultancy Services Pvt. Ltd. | 150. | 8926  | M/s. Vishwanath Associates Engineers & Builders Pvt. Ltd. |
| 122. | 8148  | M/s. Mid Pak Tyres Pvt. Ltd.                            | 151. | 5726  | M/s. Raseltronics Ltd.                                    |
| 123. | 888   | M/s. Shevades Camera Works Ltd.                         | 152. | 2880  | M/s. Vinayaka Chemicals Pvt. Ltd.                         |
| 124. | 2706  | M/s. Multispeed Hubs Ltd.                               | 153. | 5462  | M/s. Transworld Club Safari Pvt. Ltd.                     |
| 125. | 11455 | M/s. Seeta Granites & Granites Pvt. Ltd.                | 154. | 8357  | M/s. Naga Builders Pvt. Ltd.                              |
| 126. | 3997  | M/s. Cozy Homes Pvt. Ltd.                               | 155. | 8554  | M/s. Technic Lumineries Pvt. Ltd.                         |
| 127. | 10239 | M/s. Sachévaran Marketing Consultants Pvt. Ltd.         | 156. | 718   | M/s. Coffee & Spice Co. Pvt. Ltd.                         |
| 128. | 9495  | M/s. Datatalk Risk Management Pvt. Ltd.                 | 157. | 9727  | M/s. Vishal Granites Pvt. Ltd.                            |
| 129. | 9997  | M/s. Kathyayini Hotels Pvt. Ltd.                        | 158. | 5276  | M/s. K M Engineering Pvt. Ltd.                            |
| 130. | 9552  | M/s. Koyenco Vegetable Oil Refinery Pvt. Ltd.           | 159. | 6536  | M/s. Globe Steel Industry Pvt. Ltd.                       |
| 131. | 11402 | M/s. Arpita Watch Case Pvt. Ltd.                        | 160. | 9618  | M/s. Ashnor Hotels Pvt. Ltd.                              |
| 132. | 7663  | M/s. Bravura Fabrika Pvt. Ltd.                          | 161. | 8378  | M/s. Sumek Accessories Pvt. Ltd.                          |
| 133. | 3875  | M/s. Kailash Wood Industries Pvt. Ltd.                  | 162. | 8446  | M/s. Orchid Ethnic Nutrients Pvt. Ltd.                    |
| 134. | 11170 | M/s. Delta Batteries Pvt. Ltd.                          | 163. | 6225  | M/s. Mikes Pvt. Ltd.                                      |
| 135. | 535   | M/s. Vikram Studio Labs Pvt. Ltd.                       | 164. | 6296  | M/s. B K Marketing Pvt. Ltd.                              |
| 136. | 9311  | M/s. Hebbar Leo Marketing Services Pvt. Ltd.            | 165. | 5684  | M/s. J J Computer Services Pvt. Ltd.                      |
| 137. | 7168  | M/s. MIT Associates Pvt. Ltd.                           | 166. | 468   | M/s. Cone Agencies (India) Pvt. Ltd.                      |
| 138. | 8632  | M/s. Amaravana Construction Co. Pvt. Ltd.               | 167. | 10863 | M/s. Kayess Importex Pvt. Ltd.                            |
| 139. | 9762  | M/s. Ganesh Machine Tools Pvt. Ltd.                     | 168. | 6419  | M/s. Kareems Silk Filature Pvt. Ltd.                      |
| 140. | 9880  | M/s. Angel Chits Pvt. Ltd.                              | 169. | 7327  | M/s. Arati Packaging Pvt. Ltd.                            |
| 141. | 5388  | M/s. Arochem (India) Pvt. Ltd.                          | 170. | 4747  | M/s. M G Scientific Equipments Pvt. Ltd.                  |
| 142. | 5118  | M/s. Kumar Ceramics Pvt. Ltd.                           | 171. | 4802  | M/s. Geason Mobiles Pvt. Ltd.                             |
| 143. | 8726  | M/s. Pathi Finance Pvt. Ltd.                            | 172. | 11542 | M/s. Dr. Avasthi & Associates Consultants Pvt. Ltd.       |
| 144. | 3658  | M/s. Sarad Biochemicals Pvt. Ltd.                       | 173. | 9516  | M/s. Anu Management Consultants Pvt. Ltd.                 |

| 1    | 2     | 3  | 1    | 2     | 3  |
|------|-------|--|------|-------|--|
| 174. | 9162  | M/s. My Electronics Pvt. Ltd.                  | 192. | 11266 | M/s. Channaveereshwar Chits Pvt. Ltd.          |
| 175. | 9021  | M/s. Sumukha Management Services Pvt. Ltd.     | 193. | 5139  | M/s. Karnataka Syndicate Finance Ltd.          |
| 176. | 10712 | M/s. Online Travels Pvt. Ltd.                  | 194. | 8023  | M/s. Sarvajanic Property Development Pvt. Ltd. |
| 177. | 9544  | M/s. Pearl Engineering Pvt. Ltd.               | 195. | 9729  | M/s. Trident Impex Pvt. Ltd.                   |
| 178. | 8427  | M/s. Bangalore Electronics Pvt. Ltd.           | 196. | 9327  | M/s. V.N. Engineers & Contractors Pvt. Ltd.    |
| 179. | 8808  | M/s. Integrated Material Imports Pvt. Ltd.     | 197. | 9187  | M/s. Raichur Tuff Treads Pvt. Ltd.             |
| 180. | 7388  | M/s. Purva Sainika Services Pvt. Ltd.          | 198. | 7690  | M/s. Surya Housing (India) Ltd.                |
| 181. | 7811  | M/s. Piezo Electronics Pvt. Ltd.               | 199. | 3712  | M/s. Swapnalok Estate Pvt. Ltd.                |
| 182. | 7713  | M/s. Integrated Metals & Instruments Pvt. Ltd. | 200. | 10347 | M/s. Residency Marbles & Exports Pvt. Ltd.     |
| 183. | 3354  | M/s. Electro Steels & Alloys Pvt. Ltd.         | 201. | 9676  | M/s. Swarnum Oils Pvt. Ltd.                    |
| 184. | 7271  | M/s. H S Electronic Devices Pvt. Ltd.          | 202. | 7045  | M/s. Chigs Fabrika Pvt. Ltd.                   |
| 185. | 8932  | M/s. Landmark Connectors Pvt. Ltd.             | 203. | 7743  | M/s. Cimel Engineers & Contractors Pvt. Ltd.   |
| 186. | 2908  | M/s. Runner's Cinemas Pvt. Ltd.                | 204. | 6105  | M/s. Ashmayuga (India) Pvt. Ltd.               |
| 187. | 8040  | M/s. Canara Industrial Combines Pvt. Ltd.      | 205. | 6122  | M/s. L C Transporters Pvt. Ltd.                |
| 188. | 11004 | M/s. Soundarya Estates Pvt. Ltd.               | 206. | 7641  | M/s. Sigma Paints (Karnataka) Ltd.             |
| 189. | 8292  | M/s. North South Nutrients Pvt. Ltd.           |      |       |  |
| 190. | 8293  | M/s. Aries Home Aids Pvt. Ltd.                 |      |       |  |
| 191. | 11595 | M/s. Madhu Art Studio Pvt. Ltd.                |      |       |  |

C. V. SAJEEVAN  
Asst. Registrar of Companies  
Karnataka